

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 32/277**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3147	4.4	55.09	12.27	0.2974
2	3117	4.64	62.43	11.68	0.3383
3	3121	4.14	54.18	15.39	0.3453
4	3106	4.41	56.69	13.90	0.3475
5	3145	4.27	68.56	13.46	0.3941
6	3157	4.3	54.26	12.46	0.2907
7	3169	4.51	61.11	12.45	0.3432
8	3168	4.6	57.53	14.95	0.3956
9	3162	4.35	56.59	12.39	0.3049
10	3184	4.11	55.52	12.63	0.2881
11	3104	4.2	50.38	14.83	0.3137
12	3174	4.63	53.42	14.68	0.3630
13	3188	4.29	51.56	15.50	0.3428
14	3131	4.3	56.86	12.63	0.3087
15	3171	4.21	59.23	14.65	0.3654
16	3153	6.88	49.55	10.78	0.3674
17	3151	7.04	42.84	14.71	0.4435
18	3137	2.9	52.93	14.85	0.2279
19	3194	4.41	56.13	13.25	0.3281
20	3141	7.14	57.83	14.61	0.6033
21	3133	4.32	52.51	11.22	0.2544
22	3113	4.2	61.18	12.70	0.3263
23	3155	4.29	55.76	12.36	0.2956
24	3126	4.09	57.64	13.48	0.3178
25	3127	7.34	59.99	12.69	0.5586
26	3139	4.3	54.50	12.97	0.3040
27	3170	4.24	59.95	12.79	0.3252
28	3125	4.22	52.64	13.24	0.2941
29	3164	4.26	53.25	13.99	0.3174
30	3152	4.58	44.95	13.93	0.2867
31	3175	4.45	66.23	13.03	0.3840
32	3179	4.47	68.98	11.70	0.3607
33	3192	4.21	54.83	12.68	0.2926
34	3149	4.36	50.49	13.31	0.2930
35	3118	6.8	61.46	12.46	0.5209
36	3172	4.4	60.37	14.41	0.3828
37	3109	7.27	49.97	14.21	0.5162
38	3185	4.45	55.27	11.81	0.2906
39	3138	7.35	60.07	12.75	0.5630
40	3101	7.45	57.31	13.23	0.5647
41	3182	4.26	52.31	13.76	0.3067
42	3102	4.27	51.39	15.92	0.3493

43	3158	4.26	52.01	13.09	0.2901
44	3132	7.16	49.04	15.99	0.5613
45	3144	7.53	59.03	13.21	0.5873
46	3112	4.23	58.88	14.84	0.3697
47	3193	4.24	50.20	14.48	0.3082
48	3128	7.41	50.80	14.88	0.5602
49	3134	7.23	52.97	15.61	0.5979
50	3180	7.86	45.23	14.00	0.4975
51	3165	7.49	52.79	14.36	0.5677
52	3110	4.37	59.69	13.27	0.3461
53	3196	4.32	64.93	12.21	0.3426
54	3190	4.24	56.38	13.57	0.3244
55	3159	4.33	54.48	12.74	0.3005
56	3176	4.59	73.64	13.20	0.4461
57	3166	4.31	54.62	11.64	0.2741
58	3146	8.57	66.55	11.89	0.6779
59	3186	7.2	57.54	9.65	0.3996
60	3200	4.69	61.76	12.11	0.3508
61	3150	7.49	40.96	15.43	0.4734
62	3187	4.34	50.55	13.89	0.3047
63	3135	7.26	49.52	15.87	0.5706
64	3195	6.49	54.10	15.34	0.5387
65	3148	7.22	51.36	14.08	0.5220
66	3177	4.04	56.13	13.50	0.3062
67	3103	4.35	50.63	13.41	0.2954
68	3199	4.28	53.89	13.40	0.3090
69	3124	7.12	51.00	14.27	0.5183
70	3160	7.38	50.68	14.54	0.5439
71	3173	7.73	63.28	12.25	0.5991
72	3198	7.1	52.07	12.08	0.4466
73	3122	4.13	51.38	14.25	0.3023
74	3129	4.41	57.42	13.31	0.3369
75	3163	4.21	56.09	15.28	0.3608
76	3143	7.33	62.32	12.03	0.5497
77	3107	7.44	62.26	13.22	0.6123
78	3154	4.52	47.98	11.30	0.2450
79	3116	4.36	66.97	13.10	0.3824
80	3119	6.92	55.00	14.24	0.5418
81	3111	4.23	55.15	15.58	0.3634
82	3108	7.17	46.01	14.87	0.4904
83	3136	4.21	49.66	15.04	0.3145
84	3105	4.13	52.49	14.33	0.3106
85	3142	4.28	54.34	15.86	0.3689
86	3189	4.51	50.99	13.32	0.3062
87	3183	3.84	48.63	14.44	0.2696
88	3114	7.4	58.83	14.40	0.6268
89	3181	3.99	40.37	15.53	0.2502

90	3120	4.28	64.37	15.07	0.4152
91	3115	4.12	59.64	13.80	0.3391
92	3197	4.23	66.55	12.80	0.3604
93	3191	7.73	52.40	10.71	0.4337
94	3178	7.18	63.80	13.20	0.6046
95	3161	4.53	58.43	12.15	0.3216
96	3167	4.27	57.20	14.11	0.3446
97	3140	4.24	71.24	13.24	0.3998
98	3130	7	57.40	14.06	0.5649
99	3156	4.56	61.49	13.14	0.3684
100	3123	7.28	56.91	12.51	0.5183

Date: 02.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 18/92**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1719	6.95	65.26	12.75	0.5782
2	1714	6.9	56.14	14.64	0.5672
3	1768	4.56	56.25	13.97	0.3584
4	1778	4.44	46.96	15.74	0.3281
5	1751	7.67	57.48	13.22	0.5829
6	1770	4.68	65.84	14.06	0.4334
7	1728	4.72	56.81	14.22	0.3814
8	1772	7.51	57.60	13.30	0.5753
9	1704	6.95	52.01	14.40	0.5206
10	1713	7.01	61.42	14.02	0.6036
11	1720	7.51	58.89	12.87	0.5693
12	1740	7.24	58.84	14.04	0.5980
13	1756	4.48	62.21	11.77	0.3279
14	1791	7.77	67.41	13.81	0.7234
15	1776	4.63	60.25	15.55	0.4338
16	1799	4.74	64.51	14.18	0.4337
17	1785	4.45	57.02	15.24	0.3867
18	1786	7.54	53.56	14.84	0.5994
19	1798	7.32	60.10	13.93	0.6127
20	1745	9.27	59.54	14.07	0.7768
21	1730	7.73	53.60	14.70	0.6091
22	1763	4.58	52.12	14.93	0.3563
23	1733	8.01	56.09	13.76	0.6184
24	1784	4.7	51.97	15.39	0.3760
25	1716	3.52	61.74	15.66	0.3404
26	1782	9.48	47.54	15.40	0.6939
27	1727	8.99	51.50	15.40	0.7129
28	1742	9.28	45.69	15.43	0.6542
29	1729	8.81	56.05	14.11	0.6969
30	1717	8.33	48.92	14.66	0.5973
31	1705	6.97	47.37	16.53	0.5458
32	1711	4.27	43.64	18.17	0.3386
33	1760	7.56	58.54	15.29	0.6766
34	1744	4.47	54.03	15.92	0.3844
35	1734	4.56	53.01	15.90	0.3844
36	1767	4.76	52.17	14.84	0.3684
37	1707	7.31	49.18	15.58	0.5599
38	1777	4.76	50.34	17.30	0.4146
39	1703	7.26	45.45	17.95	0.5924
40	1739	7.39	57.14	15.16	0.6400
41	1775	7.49	62.01	13.50	0.6269
42	1710	8.14	53.82	14.66	0.6422

43	1795	7.56	62.79	13.49	0.6403
44	1708	3.7	57.37	13.74	0.2916
45	1701	4.51	56.16	13.62	0.3450
46	1764	7.56	53.33	12.09	0.4876
47	1746	4.5	59.21	14.66	0.3906
48	1766	9.11	62.92	14.16	0.8117
49	1755	4.2	57.04	15.02	0.3599
50	1737	7.7	62.42	13.25	0.6368
51	1712	8.71	54.92	13.51	0.6463
52	1787	7.71	50.50	14.85	0.5783
53	1754	7.46	54.40	16.65	0.6759
54	1759	7.54	51.04	14.73	0.5670
55	1749	4.55	49.85	15.71	0.3563
56	1774	7.24	49.87	16.26	0.5872
57	1792	8	58.57	15.67	0.7344
58	1793	4.64	50.41	17.75	0.4153
59	1790	9.37	50.40	16.90	0.7983
60	1794	8.84	52.91	15.82	0.7399
61	1771	8.64	64.70	13.85	0.7741
62	1789	4.73	60.80	14.57	0.4191
63	1762	4.47	64.30	14.18	0.4077
64	1765	7.47	61.82	14.40	0.6648
65	1718	4.28	66.03	14.31	0.4045
66	1788	7.6	61.80	15.36	0.7212
67	1780	4.39	63.62	15.55	0.4342
68	1706	4.3	63.97	13.93	0.3831
69	1709	7.15	51.29	14.51	0.5320
70	1757	7.61	62.18	14.86	0.7032
71	1783	4.48	53.89	16.44	0.3969
72	1738	7.55	54.91	15.59	0.6463
73	1752	4.69	59.92	14.57	0.4094
74	1721	6.72	51.59	16.71	0.5793
75	1743	7.71	48.44	18.79	0.7016
76	1758	4.63	51.54	17.29	0.4125
77	1741	7.61	53.79	16.23	0.6644
78	1750	7.8	56.08	14.43	0.6310
79	1800	7.67	60.58	15.20	0.7064
80	1732	4.72	58.78	14.97	0.4154
81	1753	7.58	59.10	13.87	0.6216
82	1722	8.12	57.50	16.43	0.7673
83	1735	4.39	52.83	16.39	0.3802
84	1769	4.57	47.32	15.49	0.3350
85	1723	4.51	59.93	11.96	0.3234
86	1781	4.75	53.94	15.83	0.4056
87	1725	7.58	53.90	15.44	0.6307
88	1761	4.24	58.44	15.79	0.3914
89	1748	7.86	50.71	15.46	0.6162

90	1715	8.61	55.43	14.45	0.6897
91	1724	4.55	59.25	14.03	0.3781
92	1797	7.31	58.75	14.60	0.6272
93	1726	7.76	62.45	13.67	0.6627
94	1796	4.78	58.28	15.07	0.4197
95	1747	7.58	61.32	14.94	0.6943
96	1702	4.49	57.81	13.72	0.3561
97	1731	7.49	58.55	13.49	0.5917
98	1773	9.11	61.22	14.96	0.8345
99	1736	8.97	60.56	14.13	0.7678
100	1779	4.67	61.27	14.88	0.4259

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 19/93

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1865	6.34	64.16	11.72	0.4768
2	1819	4.68	57.07	13.46	0.3594
3	1876	4.63	67.27	12.28	0.3824
4	1847	8.33	56.43	10.86	0.5106
5	1889	3.7	56.80	12.50	0.2627
6	1828	4.04	48.17	12.04	0.2343
7	1804	7.79	62.40	13.85	0.6731
8	1823	7.8	63.43	13.48	0.6669
9	1862	8.82	60.60	9.87	0.5274
10	1817	4.69	57.28	13.72	0.3686
11	1882	4.52	52.79	11.01	0.2626
12	1836	8.19	52.37	10.56	0.4529
13	1871	6.65	66.92	10.77	0.4795
14	1893	6.7	61.03	12.44	0.5085
15	1856	3.18	50.72	12.68	0.2045
16	1827	7.7	53.68	11.18	0.4620
17	1839	6.72	53.50	11.03	0.3965
18	1825	6.8	47.65	12.24	0.3964
19	1831	3.41	44.50	12.31	0.1869
20	1840	6.75	56.32	10.12	0.3848
21	1809	7.6	58.44	13.69	0.6080
22	1814	4.39	55.19	13.35	0.3235
23	1866	3.34	59.98	13.00	0.2605
24	1810	4.68	53.28	14.56	0.3632
25	1892	6.47	48.82	15.22	0.4807
26	1844	6.74	53.12	12.44	0.4455
27	1857	7.05	51.98	14.18	0.5196
28	1815	7.93	52.29	14.67	0.6082
29	1851	6.19	51.96	14.40	0.4630
30	1821	7.98	54.38	15.15	0.6576
31	1842	8.08	54.67	14.85	0.6561
32	1883	4.07	39.58	15.87	0.2556
33	1813	7.64	55.87	14.75	0.6295
34	1868	3.26	57.52	13.98	0.2621
35	1886	7.18	31.16	18.74	0.4193
36	1852	6.89	49.07	15.55	0.5257

37	1806	4.58	53.88	15.50	0.3824
38	1811	4.8	49.57	17.49	0.4162
39	1880	6.87	56.77	15.45	0.6025
40	1853	6.97	52.16	15.11	0.5492
41	1885	7.05	45.15	12.18	0.3878
42	1854	7.03	58.49	11.32	0.4654
43	1891	3.89	59.61	12.73	0.2953
44	1887	4.16	49.11	11.87	0.2425
45	1802	7.48	63.49	14.11	0.6702
46	1884	3.86	50.04	12.17	0.2351
47	1826	7.54	54.84	9.87	0.4079
48	1829	7.03	48.59	11.55	0.3944
49	1896	6.61	55.93	12.46	0.4607
50	1807	7.77	63.13	14.78	0.7249
51	1858	3.61	56.81	13.80	0.2830
52	1833	7.44	43.31	15.45	0.4977
53	1900	3.42	41.60	16.03	0.2281
54	1898	3.42	48.84	15.36	0.2565
55	1838	6.38	48.16	15.88	0.4881
56	1837	3.38	50.34	14.70	0.2501
57	1867	3.41	57.04	14.60	0.2841
58	1870	7.91	57.62	14.80	0.6747
59	1861	4.23	57.64	15.34	0.3739
60	1818	4.71	54.24	15.86	0.4051
61	1832	6.92	45.98	11.11	0.3536
62	1897	6.98	63.60	11.73	0.5207
63	1874	7.5	63.88	13.74	0.6585
64	1816	4.72	60.11	12.68	0.3597
65	1855	7.05	49.65	9.35	0.3271
66	1894	4.25	61.92	11.13	0.2928
67	1822	7.79	63.51	13.24	0.6551
68	1872	3.3	60.96	12.84	0.2584
69	1846	3.92	59.85	11.45	0.2685
70	1805	4.71	62.48	12.42	0.3655
71	1895	3.89	58.46	15.16	0.3447
72	1878	3	59.37	15.29	0.2724
73	1835	7.45	41.84	13.07	0.4075
74	1820	4.55	58.85	14.09	0.3772
75	1841	8.26	51.07	16.49	0.6955
76	1830	7.9	43.74	18.02	0.6225
77	1803	7.63	57.43	14.77	0.6470
78	1875	3.29	54.12	14.32	0.2550
79	1848	7.06	46.28	14.89	0.4864
80	1877	7.74	57.95	13.08	0.5867
81	1890	6.78	58.48	14.55	0.5770
82	1850	7.79	51.55	14.45	0.5804
83	1881	4.73	50.03	15.19	0.3595
84	1869	3.29	55.41	15.56	0.2836
85	1843	8.15	54.78	14.57	0.6504
86	1859	8.45	60.55	13.91	0.7115

87	1812	9.12	51.14	16.31	0.7606
88	1824	8.97	52.54	14.48	0.6826
89	1801	9.15	57.15	15.28	0.7988
90	1879	7.81	56.23	14.16	0.6217
91	1860	3.42	62.84	12.75	0.2739
92	1899	3.4	66.90	12.03	0.2737
93	1845	6.28	53.84	10.59	0.3580
94	1808	8.12	63.52	14.53	0.7495
95	1849	6.81	54.19	11.88	0.4386
96	1888	4.05	50.13	12.47	0.2531
97	1863	6.23	64.25	13.39	0.5358
98	1864	6.78	67.29	13.45	0.6136
99	1834	8.23	54.90	9.54	0.4313
100	1873	3.57	53.78	11.14	0.2138

Date: 01.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 13/47**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1201	7.63	59.70	13.80	0.6287
2	1233	7.39	52.51	14.38	0.5579
3	1278	7.54	54.80	13.52	0.5587
4	1243	8.73	55.92	12.64	0.6172
5	1253	2.26	40.30	17.37	0.1582
6	1227	8.97	55.29	16.57	0.8217
7	1264	7.84	59.04	14.01	0.6484
8	1240	7.65	62.37	11.74	0.5600
9	1226	9.09	58.80	14.54	0.7772
10	1248	4.34	60.31	13.55	0.3546
11	1288	8.93	59.02	14.45	0.7617
12	1205	7.75	62.88	13.96	0.6805
13	1234	4.38	51.40	14.40	0.3241
14	1207	7.4	59.65	12.02	0.5306
15	1229	4.89	55.76	13.61	0.3712
16	1203	7.74	60.96	12.84	0.6060
17	1202	7.47	60.20	14.42	0.6484
18	1235	4.44	62.42	13.39	0.3712
19	1254	9.1	53.74	13.19	0.6452
20	1272	7.74	56.71	12.89	0.5658
21	1245	4.57	56.27	12.33	0.3172
22	1265	7.62	54.24	13.50	0.5578
23	1267	7.94	59.15	13.95	0.6551
24	1204	7.62	59.25	14.36	0.6485
25	1250	7.43	57.82	14.15	0.6078
26	1268	7.28	55.36	14.47	0.5831
27	1256	4.48	55.29	14.00	0.3468
28	1257	7.59	55.06	13.89	0.5806
29	1214	4.76	49.25	14.23	0.3337
30	1221	4.73	49.91	15.25	0.3600
31	1292	4.46	53.94	14.48	0.3483
32	1298	9.63	55.10	13.99	0.7425
33	1280	7.63	54.52	14.36	0.5974
34	1285	4.69	58.05	14.97	0.4076
35	1269	7.57	54.05	15.12	0.6185
36	1212	9.37	48.32	16.83	0.7618
37	1295	8.69	52.92	15.99	0.7352
38	1230	7.51	51.87	14.57	0.5678
39	1209	7.33	58.81	15.47	0.6670
40	1276	8.89	55.02	16.25	0.7948
41	1258	7.43	50.78	15.70	0.5922
42	1262	7.47	43.38	14.18	0.4594

43	1208	4.87	50.08	16.25	0.3964
44	1300	4.37	53.60	16.01	0.3749
45	1293	9.03	50.33	16.67	0.7576
46	1219	4.48	58.47	14.64	0.3835
47	1223	7.51	58.73	15.80	0.6969
48	1274	7.55	55.18	14.46	0.6025
49	1231	7.24	56.70	13.95	0.5727
50	1296	7.54	57.98	14.19	0.6205
51	1255	9.45	59.60	15.59	0.8779
52	1215	9.04	62.06	14.26	0.8000
53	1206	9.59	54.53	15.50	0.8104
54	1213	4.78	63.23	15.47	0.4675
55	1218	8.73	67.82	13.85	0.8197
56	1249	4.52	62.41	14.20	0.4005
57	1289	4.47	60.82	14.60	0.3969
58	1236	7.42	54.14	13.58	0.5454
59	1294	4.59	61.14	15.19	0.4264
60	1242	7.22	50.57	16.51	0.6029
61	1290	7.65	51.96	15.97	0.6350
62	1241	4.6	48.84	16.50	0.3708
63	1222	7.42	51.80	15.08	0.5795
64	1210	7.46	55.67	14.46	0.6005
65	1244	4.89	41.31	16.03	0.3237
66	1286	9.38	53.84	12.85	0.6491
67	1271	7.51	49.69	17.15	0.6399
68	1281	7.66	43.75	16.11	0.5400
69	1297	4.39	47.88	14.56	0.3060
70	1211	7.42	50.18	16.14	0.6010
71	1220	4.86	49.02	17.56	0.4184
72	1277	7.72	48.99	15.51	0.5867
73	1238	7.74	55.20	16.11	0.6881
74	1225	7.46	50.85	13.43	0.5095
75	1228	4.88	47.98	14.40	0.3372
76	1252	7.29	51.97	15.09	0.5715
77	1263	7.2	38.72	15.08	0.4205
78	1287	7.42	42.59	16.11	0.5090
79	1261	4.2	42.37	15.79	0.2810
80	1284	8.63	67.30	15.79	0.9174
81	1275	7.53	59.19	14.28	0.6363
82	1239	7.72	57.48	14.74	0.6539
83	1260	7.42	52.39	15.12	0.5877
84	1247	9.07	58.09	14.49	0.7637
85	1216	4.95	65.00	13.77	0.4430
86	1283	4.84	63.19	14.43	0.4414
87	1237	7.5	62.00	13.71	0.6375
88	1282	9.27	51.40	14.84	0.7073
89	1299	4.51	60.27	14.14	0.3843

90	1270	7.57	60.31	16.03	0.7320
91	1266	7.78	52.47	14.66	0.5983
92	1273	7.59	53.75	14.75	0.6019
93	1251	4.38	63.28	13.13	0.3640
94	1224	7.57	67.60	13.74	0.7033
95	1232	9.24	59.22	14.98	0.8196
96	1279	7.75	54.00	14.67	0.6138
97	1217	7.58	57.00	15.53	0.6708
98	1291	4.56	61.08	13.57	0.3780
99	1246	4.39	61.49	13.58	0.3666
100	1259	7.24	56.48	15.63	0.6393

Date: 31.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 21/155**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2054	8.18	52.68	15.62	0.6732
2	2006	4.53	48.27	14.52	0.3176
3	2084	4.5	55.48	14.80	0.3694
4	2096	4.29	52.22	16.74	0.3749
5	2031	7.48	60.56	15.11	0.6844
6	2007	7.26	54.00	16.17	0.6338
7	2099	9.09	53.36	14.39	0.6981
8	2008	7.12	54.19	14.17	0.5468
9	2081	4.48	54.53	13.99	0.3418
10	2002	4.89	51.21	12.52	0.3134
11	2095	4.18	63.51	12.88	0.3419
12	2005	4.44	64.86	12.57	0.3619
13	2057	4.14	58.70	13.73	0.3337
14	2037	7.04	53.40	13.05	0.4907
15	2051	6.98	57.87	11.21	0.4530
16	2083	4.48	62.01	14.00	0.3889
17	2009	6.09	62.21	14.32	0.5426
18	2090	9.23	53.16	12.53	0.6147
19	2015	9.07	69.13	13.16	0.8254
20	2020	7.15	65.72	12.93	0.6078
21	2066	7.11	68.81	11.67	0.5709
22	2075	4.4	59.20	11.89	0.3098
23	2032	4.78	69.24	11.27	0.3728
24	2053	7.02	58.97	11.12	0.4605
25	2026	4.3	62.50	11.98	0.3221
26	2029	4.55	61.22	11.84	0.3299
27	2067	8.35	69.80	11.85	0.6905
28	2036	6.18	53.10	12.35	0.4054
29	2100	4.99	63.42	13.70	0.4336
30	2071	7.21	41.82	11.86	0.3576
31	2079	4.43	64.83	11.11	0.3190
32	2028	7.38	65.23	10.78	0.5188
33	2092	4.5	60.72	12.22	0.3339
34	2091	8.71	52.75	11.87	0.5452
35	2056	8.46	57.44	11.63	0.5651
36	2034	7.64	74.26	12.71	0.7212
37	2038	8.66	48.38	12.17	0.5101
38	2003	7.46	56.60	10.09	0.4260
39	2074	4.3	59.95	10.79	0.2782
40	2035	7.67	59.85	11.50	0.5277
41	2033	4.3	68.75	10.23	0.3023
42	2041	7	56.16	10.40	0.4088

43	2063	4.16	61.04	12.02	0.3053
44	2069	7.09	55.02	11.61	0.4531
45	2062	4.51	56.61	10.55	0.2692
46	2043	8.36	57.99	12.97	0.6287
47	2094	4.47	55.24	11.71	0.2892
48	2011	4.61	63.58	14.53	0.4260
49	2024	7.25	63.06	13.37	0.6112
50	2072	4.74	45.21	13.49	0.2891
51	2049	4.61	60.94	10.83	0.3043
52	2013	4.85	61.50	9.89	0.2949
53	2064	8.88	56.65	11.74	0.5905
54	2078	8.71	57.56	12.80	0.6419
55	2050	8.52	59.16	13.18	0.6646
56	2076	4.62	63.40	12.10	0.3544
57	2039	6.55	43.19	12.16	0.3439
58	2010	4.4	60.81	11.73	0.3137
59	2048	6.97	60.56	12.42	0.5241
60	2097	7.15	60.89	12.56	0.5470
61	2046	8.27	52.13	15.35	0.6616
62	2040	4.24	57.03	14.22	0.3439
63	2042	8.22	49.10	14.62	0.5902
64	2023	4.42	62.04	11.98	0.3284
65	2027	4.39	60.49	12.91	0.3429
66	2098	9.09	60.57	13.88	0.7645
67	2001	7.4	61.42	13.81	0.6275
68	2065	7.15	65.74	13.81	0.6492
69	2070	4.27	50.92	14.87	0.3232
70	2044	8.75	54.61	15.05	0.7192
71	2088	4.16	65.80	12.17	0.3332
72	2093	8.48	56.80	14.44	0.6954
73	2060	8.29	58.36	14.50	0.7013
74	2019	4.76	58.25	12.88	0.3570
75	2059	8.65	53.68	13.11	0.6090
76	2012	4.77	60.82	13.12	0.3806
77	2052	7.73	48.49	14.52	0.5442
78	2022	4.59	61.67	12.58	0.3562
79	2086	8.96	58.11	14.94	0.7777
80	2073	4.34	51.86	14.73	0.3316
81	2018	7.63	64.32	9.81	0.4815
82	2055	6.88	58.05	13.25	0.5291
83	2047	8.52	56.98	11.30	0.5487
84	2017	7.51	59.60	14.31	0.6406
85	2021	4.36	66.39	13.26	0.3837
86	2080	7.44	55.60	12.57	0.5201
87	2082	6.55	60.97	13.99	0.5587
88	2016	7.37	63.07	11.69	0.5432
89	2068	8.48	62.15	12.52	0.6597

90	2061	8.58	66.57	11.10	0.6341
91	2085	7.49	62.12	11.65	0.5423
92	2089	7.49	60.75	12.12	0.5513
93	2004	7.59	45.09	11.93	0.4083
94	2077	7.32	59.29	11.91	0.5168
95	2014	7.75	57.27	12.48	0.5541
96	2045	8.72	57.91	12.83	0.6479
97	2030	7.67	71.16	12.35	0.6742
98	2058	4.2	55.01	10.83	0.2503
99	2087	7.27	67.74	10.87	0.5351
100	2025	4.27	69.09	10.64	0.3138

Date: 30.08.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 23/157**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2289	9.44	62.63	12.44	0.7354
2	2220	7.42	59.10	11.73	0.5142
3	2207	7.14	64.57	14.05	0.6476
4	2295	7.43	69.88	14.25	0.7400
5	2226	8.67	63.49	12.21	0.6719
6	2229	7.95	69.43	12.27	0.6773
7	2297	7.35	65.26	13.68	0.6564
8	2224	3.81	69.12	12.02	0.3166
9	2264	7.54	69.54	12.47	0.6537
10	2290	4.47	65.15	14.46	0.4211
11	2225	7.24	67.16	12.88	0.6263
12	2261	7.44	60.97	11.24	0.5096
13	2237	8.66	70.66	11.21	0.6859
14	2266	8.2	64.95	14.38	0.7659
15	2277	8.58	69.49	12.45	0.7422
16	2230	4.87	66.66	12.48	0.4052
17	2279	7.72	64.20	11.20	0.5551
18	2280	7.74	62.37	12.70	0.6130
19	2249	7.34	57.45	12.17	0.5131
20	2221	3.62	63.05	12.50	0.2853
21	2272	3.58	63.74	11.17	0.2549
22	2257	7.47	61.16	10.64	0.4863
23	2245	4.3	49.19	12.69	0.2683
24	2273	7.49	60.82	12.36	0.5632
25	2213	3.46	56.88	12.31	0.2422
26	2243	3.66	55.02	10.56	0.2126
27	2223	4.55	59.64	12.64	0.3431
28	2300	4.33	60.86	12.68	0.3343
29	2250	7.38	53.94	10.16	0.4044
30	2215	4.52	61.04	12.17	0.3358
31	2271	8.88	65.77	11.48	0.6704
32	2292	4.38	56.14	17.21	0.4231
33	2217	7.41	53.15	14.37	0.5661
34	2214	4.53	56.74	12.30	0.3162
35	2254	6.48	68.15	13.63	0.6020
36	2232	8.64	63.04	14.05	0.7655
37	2234	4.57	72.74	12.90	0.4287
38	2218	4.43	58.15	14.03	0.3615
39	2287	9.36	42.16	17.65	0.6964
40	2285	7.73	47.77	16.71	0.6169
41	2216	4.48	62.06	13.55	0.3768
42	2253	4.9	69.68	12.16	0.4150

43	2209	4.43	56.74	14.35	0.3606
44	2204	6.93	54.19	14.82	0.5565
45	2203	9.32	41.58	12.87	0.4986
46	2298	7.06	58.54	14.91	0.6163
47	2284	7.72	44.34	14.79	0.5064
48	2208	8.49	59.42	13.70	0.6911
49	2235	8.53	71.09	13.52	0.8197
50	2274	7.67	62.10	12.54	0.5975
51	2248	3.91	51.29	13.80	0.2768
52	2269	4.53	66.23	14.59	0.4376
53	2246	4.5	50.50	14.46	0.3285
54	2211	7.01	58.97	14.24	0.5888
55	2270	7.06	62.66	13.01	0.5754
56	2282	4.6	50.96	13.32	0.3123
57	2255	7.79	63.83	12.85	0.6388
58	2239	4.26	45.30	15.76	0.3042
59	2242	4.45	56.74	12.25	0.3093
60	2259	4.57	53.05	13.85	0.3359
61	2263	4.53	61.02	13.06	0.3610
62	2293	7.19	56.34	14.43	0.5845
63	2228	8.34	62.65	10.76	0.5621
64	2240	7.24	55.91	12.57	0.5090
65	2238	4.18	53.22	11.48	0.2554
66	2283	4.54	52.33	13.11	0.3114
67	2288	7.96	55.90	12.63	0.5620
68	2265	4.7	64.43	11.04	0.3342
69	2299	4.38	60.62	13.89	0.3688
70	2202	4.38	55.94	11.89	0.2913
71	2212	4.53	64.72	11.39	0.3339
72	2260	7.22	55.80	11.99	0.4830
73	2227	7.4	52.69	9.85	0.3841
74	2205	4.55	56.35	11.64	0.2985
75	2236	4.65	62.42	11.81	0.3427
76	2276	8.07	64.72	13.47	0.7037
77	2294	7.18	53.99	10.35	0.4014
78	2244	4.33	54.09	12.11	0.2836
79	2286	7.56	54.20	13.86	0.5678
80	2222	4.39	63.32	12.59	0.3499
81	2256	3.13	63.67	14.76	0.2942
82	2278	4.57	71.20	12.56	0.4086
83	2231	7.32	67.52	12.14	0.6002
84	2210	8.84	60.86	10.84	0.5834
85	2262	7.65	63.50	13.06	0.6342
86	2275	7.33	68.23	12.19	0.6099
87	2281	7.69	51.31	13.53	0.5337
88	2241	8.36	55.53	14.33	0.6655
89	2296	8.53	47.26	13.31	0.5365

90	2206	4.06	49.90	11.26	0.2282
91	2251	4.18	52.01	15.48	0.3365
92	2247	7.32	47.85	16.89	0.5915
93	2233	7.24	60.43	12.26	0.5365
94	2201	7.29	53.01	15.68	0.6058
95	2252	4.33	54.07	14.74	0.3451
96	2291	4.45	53.41	14.36	0.3413
97	2268	9.26	61.98	11.86	0.6806
98	2219	7.75	59.58	11.31	0.5224
99	2267	4.37	52.47	14.33	0.3286
100	2258	4.43	51.22	16.71	0.3792

Date: 27.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 16/90**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1550	4.49	61.27	12.93	0.3556
2	1516	8.4	60.75	13.89	0.7090
3	1579	9	52.99	13.55	0.6462
4	1552	9.01	58.75	12.63	0.6685
5	1600	9.04	56.15	13.62	0.6916
6	1547	9.23	55.21	12.32	0.6276
7	1529	7.63	50.23	12.82	0.4914
8	1589	3.82	70.52	13.00	0.3503
9	1573	7.67	68.99	12.86	0.6803
10	1527	7.04	54.74	13.08	0.5041
11	1569	4.54	60.03	14.13	0.3850
12	1508	7.89	62.40	14.65	0.7211
13	1519	4.08	59.32	16.10	0.3896
14	1511	8.44	50.54	13.36	0.5697
15	1576	4.58	62.22	12.60	0.3591
16	1510	4.13	57.10	15.67	0.3696
17	1595	8.84	45.22	15.33	0.6126
18	1598	4.56	41.99	16.48	0.3156
19	1507	8.65	63.25	13.39	0.7327
20	1561	8.9	47.32	15.17	0.6390
21	1564	8.76	61.50	13.40	0.7218
22	1534	4.58	53.12	15.27	0.3714
23	1596	4.7	49.84	16.79	0.3934
24	1549	4.33	54.47	14.36	0.3386
25	1509	4.23	57.53	15.77	0.3837
26	1536	4.36	49.19	14.05	0.3013
27	1524	4.31	45.57	13.80	0.2711
28	1556	8.27	56.21	12.01	0.5582
29	1513	7.11	58.83	14.58	0.6100
30	1594	9.15	53.59	13.49	0.6615
31	1526	7.1	65.56	12.77	0.5943
32	1540	4.4	49.88	13.15	0.2886
33	1532	4.08	50.39	14.19	0.2917
34	1572	4.38	69.65	13.40	0.4087
35	1591	4.34	56.02	14.14	0.3437
36	1567	4.88	62.70	11.79	0.3606
37	1504	8.13	50.63	13.35	0.5496
38	1514	6.63	62.92	13.19	0.5503
39	1563	4.48	64.37	13.73	0.3960
40	1533	7.88	53.17	13.00	0.5445
41	1506	8.09	60.61	15.21	0.7459
42	1593	8.96	43.81	17.53	0.6881

43	1502	3.98	51.72	14.89	0.3065
44	1515	3.52	62.05	14.18	0.3098
45	1525	8.5	48.77	12.94	0.5364
46	1501	6.54	46.08	17.34	0.5225
47	1520	4.44	56.09	11.05	0.2753
48	1522	7.62	40.12	15.88	0.4854
49	1535	7.44	43.90	16.54	0.5401
50	1531	4.37	41.79	16.08	0.2937
51	1539	4.46	51.12	13.05	0.2975
52	1553	4.49	65.44	12.79	0.3758
53	1548	4.39	57.94	14.20	0.3613
54	1528	4.48	60.70	11.40	0.3100
55	1559	4.56	56.70	13.12	0.3393
56	1586	4.72	72.07	12.39	0.4215
57	1505	6.41	53.16	12.32	0.4199
58	1546	7.46	63.85	13.80	0.6572
59	1592	7.1	49.19	13.86	0.4842
60	1590	4.28	47.74	14.03	0.2868
61	1530	4.31	51.56	12.10	0.2689
62	1568	4.39	67.13	12.66	0.3731
63	1518	4.34	61.78	11.52	0.3090
64	1599	7.11	62.37	13.53	0.6001
65	1538	4.43	47.58	13.35	0.2813
66	1577	4.5	61.48	14.95	0.4135
67	1545	7.76	45.12	17.31	0.6061
68	1574	4.41	48.40	16.45	0.3510
69	1537	4.42	45.06	16.20	0.3227
70	1543	8.85	56.16	14.51	0.7213
71	1587	7.76	57.25	14.79	0.6573
72	1585	7.54	61.55	14.36	0.6665
73	1560	4.43	53.25	15.29	0.3606
74	1512	8.38	53.79	14.48	0.6528
75	1570	4.45	65.61	13.32	0.3889
76	1523	3.99	43.14	10.85	0.1867
77	1578	7.44	67.93	12.57	0.6354
78	1541	4.81	65.52	12.91	0.4069
79	1562	7.4	62.50	11.89	0.5498
80	1503	7.16	51.41	11.52	0.4239
81	1544	7.37	56.99	12.65	0.5314
82	1580	4.5	61.50	13.32	0.3685
83	1584	4.44	68.62	12.52	0.3814
84	1565	4.41	64.30	12.97	0.3678
85	1554	8.77	48.46	13.00	0.5525
86	1551	4.57	56.72	12.01	0.3112
87	1581	7.51	70.14	12.93	0.6812
88	1542	9.16	55.71	12.83	0.6549
89	1588	4.51	74.31	12.66	0.4244

90	1521	4.23	42.13	13.32	0.2373
91	1555	8.51	53.38	13.58	0.6170
92	1571	9.26	54.21	12.41	0.6232
93	1582	4.59	64.57	13.13	0.3892
94	1566	4.4	64.54	14.05	0.3991
95	1597	8.48	55.73	12.88	0.6089
96	1558	7.56	58.80	14.42	0.6411
97	1517	8.72	61.63	15.95	0.8572
98	1557	4.05	50.42	15.81	0.3228
99	1583	4.54	59.01	14.69	0.3936
100	1575	9.08	61.93	14.44	0.8118

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 27/207

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2659	6.97	53.38	11.61	0.4321
2	2627	4.65	57.26	12.77	0.3399
3	2678	4.23	65.50	12.29	0.3405
4	2614	7.57	51.78	12.96	0.5079
5	2648	3.33	50.21	12.55	0.2098
6	2607	4.2	50.57	14.89	0.3163
7	2673	3.48	61.77	10.78	0.2318
8	2651	7.01	48.45	12.67	0.4304
9	2692	7.24	49.17	14.07	0.5010
10	2699	4.55	58.12	11.39	0.3012
11	2602	3.38	62.44	12.54	0.2647
12	2670	8.4	59.78	11.04	0.5544
13	2655	4.28	50.74	10.21	0.2217
14	2697	4.5	58.58	13.09	0.3451
15	2675	4.57	69.10	11.95	0.3775
16	2620	4.43	54.77	15.26	0.3703
17	2642	6.89	45.33	15.84	0.4947
18	2638	4.22	63.47	15.46	0.4140
19	2613	7.62	46.23	15.73	0.5540
20	2645	8.56	45.46	15.24	0.5932
21	2666	3.7	55.44	13.62	0.2793
22	2629	7.44	55.24	14.81	0.6086
23	2679	4.24	63.18	13.88	0.3718
24	2687	4.34	56.07	15.91	0.3871
25	2649	6.95	46.19	14.59	0.4684
26	2623	7.52	55.45	14.16	0.5903
27	2625	4.33	57.04	12.69	0.3135
28	2624	3.83	56.81	11.83	0.2574
29	2641	4.45	73.39	11.68	0.3814
30	2647	3.89	56.27	12.37	0.2707
31	2658	4.57	52.31	11.72	0.2801
32	2676	4.48	61.34	11.17	0.3069
33	2608	4.24	41.38	14.64	0.2569

34	2681	4.33	53.12	14.14	0.3252
35	2677	3.58	63.55	12.27	0.2792
36	2694	4.31	56.06	13.97	0.3375
37	2698	7.05	50.36	15.13	0.5372
38	2657	4.17	49.95	15.50	0.3228
39	2664	7.22	49.38	15.41	0.5494
40	2632	4.24	51.23	16.14	0.3506
41	2672	3.92	52.61	14.64	0.3018
42	2653	4.21	55.02	14.27	0.3305
43	2630	4.5	51.34	16.52	0.3816
44	2644	4.28	43.33	17.38	0.3223
45	2618	7.84	45.57	16.15	0.5770
46	2603	7.1	67.19	11.13	0.5311
47	2626	7.43	47.21	17.22	0.6041
48	2663	4.29	43.91	17.33	0.3265
49	2619	4.56	49.41	15.04	0.3388
50	2643	5.17	41.76	17.53	0.3784
51	2604	4.37	40.77	14.52	0.2587
52	2640	4.2	66.64	13.82	0.3868
53	2609	7.43	56.41	12.99	0.5446
54	2639	7.31	66.10	12.80	0.6184
55	2685	4.47	61.69	14.56	0.4014
56	2606	4.52	53.44	12.46	0.3010
57	2621	5.1	46.02	12.60	0.2958
58	2690	4.09	59.46	13.35	0.3247
59	2650	8.52	55.41	12.06	0.5691
60	2668	4.51	58.22	13.26	0.3482
61	2684	4.54	43.27	17.54	0.3446
62	2652	4.25	50.78	14.81	0.3196
63	2660	7.32	49.19	15.33	0.5519
64	2605	7.68	49.09	13.75	0.5184
65	2700	7.98	47.29	11.46	0.4325
66	2646	7.14	36.29	14.85	0.3848
67	2689	4.29	55.78	15.81	0.3784
68	2656	3.97	40.86	17.01	0.2759
69	2680	7.62	41.58	15.08	0.4778
70	2688	4.35	48.28	17.17	0.3606
71	2674	4.4	62.88	14.11	0.3903
72	2617	4.24	56.55	12.45	0.2985
73	2612	4.43	42.09	16.89	0.3150
74	2615	4.39	54.02	11.83	0.2805
75	2611	4.37	50.64	10.17	0.2251
76	2637	4.19	66.60	11.80	0.3293
77	2631	7.14	60.85	12.33	0.5355
78	2662	4.2	56.32	14.08	0.3331
79	2634	7.41	69.03	12.28	0.6284
80	2628	7.9	53.19	13.07	0.5491

81	2682	4.33	44.18	12.99	0.2485
82	2671	4.22	67.29	11.12	0.3157
83	2667	3.71	57.67	11.24	0.2404
84	2696	4.52	55.29	13.44	0.3358
85	2654	7.15	54.40	12.28	0.4776
86	2633	7.28	50.65	14.55	0.5365
87	2661	4.39	55.87	12.14	0.2976
88	2683	4.1	51.93	14.67	0.3124
89	2622	4.49	58.01	13.74	0.3579
90	2695	7.68	49.07	15.71	0.5921
91	2610	7.52	44.31	18.55	0.6181
92	2636	7.34	56.54	15.62	0.6481
93	2601	4.42	63.19	14.35	0.4009
94	2686	4.21	55.69	14.80	0.3469
95	2616	4.55	46.02	15.62	0.3271
96	2635	7.57	55.80	15.14	0.6397
97	2693	7.77	51.61	15.89	0.6371
98	2669	7.32	63.06	14.70	0.6786
99	2665	4.33	53.74	15.93	0.3706
100	2691	4.41	50.91	15.16	0.3405

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 35/280

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3426	7.39	49.48	15.74	0.5757
2	3482	3.55	55.95	11.67	0.2318
3	3480	3.96	59.83	12.44	0.2946
4	3476	6.78	44.45	12.82	0.3865
5	3448	7.44	52.93	11.88	0.4680
6	3454	4.52	61.28	15.19	0.4208
7	3423	7.84	45.76	13.40	0.4806
8	3486	4.13	57.59	11.51	0.2738
9	3484	6.98	56.40	11.76	0.4628
10	3467	8.18	64.88	16.18	0.8589
11	3434	7.52	59.67	13.71	0.6151
12	3402	7.36	58.32	10.49	0.4504
13	3439	4.55	56.51	12.94	0.3326
14	3414	4.41	55.04	14.15	0.3435
15	3405	4.35	60.75	14.72	0.3889
16	3497	7.35	46.00	15.61	0.5277
17	3421	7.27	42.87	15.72	0.4900
18	3499	4.23	41.16	16.84	0.2931
19	3485	4.18	47.09	13.17	0.2592
20	3474	4.48	57.72	15.90	0.4113
21	3481	7.41	43.79	16.17	0.5246
22	3401	4.06	57.05	14.11	0.3268
23	3478	4.12	47.71	14.59	0.2868
24	3493	4.42	68.90	11.36	0.3461

25	3471	4.58	55.86	14.21	0.3637
26	3468	4.31	69.86	12.02	0.3620
27	3416	4.34	57.57	14.87	0.3715
28	3430	7.57	44.48	14.07	0.4739
29	3500	7.17	59.82	13.54	0.5808
30	3462	4.25	58.43	14.56	0.3617
31	3422	3.87	46.88	15.44	0.2802
32	3447	4.43	52.56	13.64	0.3176
33	3479	7.16	53.53	11.23	0.4303
34	3428	7.2	52.24	13.74	0.5170
35	3409	4.26	59.09	15.16	0.3817
36	3451	4.04	61.96	14.74	0.3689
37	3411	8.01	44.46	17.39	0.6192
38	3441	7.73	53.41	15.65	0.6462
39	3419	4.27	66.14	16.93	0.4782
40	3483	4.03	47.84	13.38	0.2579
41	3495	4.54	49.49	16.08	0.3614
42	3427	7.52	43.49	17.25	0.5640
43	3492	4.19	64.43	12.65	0.3415
44	3455	4.4	55.21	15.58	0.3784
45	3449	4.93	53.82	15.55	0.4126
46	3417	8.57	61.35	15.16	0.7970
47	3460	4.34	61.98	13.83	0.3719
48	3410	7.48	50.88	15.02	0.5715
49	3463	4.27	58.77	14.89	0.3736
50	3452	4.29	52.08	15.25	0.3406
51	3453	7.48	55.29	13.73	0.5677
52	3470	3.84	52.86	13.19	0.2676
53	3403	7	61.94	13.87	0.6013
54	3440	7.56	63.32	12.70	0.6078
55	3475	4.02	56.86	12.84	0.2935
56	3429	4.38	60.79	14.23	0.3789
57	3436	4.25	59.36	14.96	0.3774
58	3432	4.73	54.96	13.83	0.3595
59	3464	4.42	61.41	12.60	0.3421
60	3458	4.25	59.54	13.74	0.3476
61	3437	8.45	48.16	16.30	0.6633
62	3407	4.29	49.24	15.94	0.3368
63	3442	8.25	50.98	15.85	0.6666
64	3477	4.2	49.09	15.09	0.3112
65	3489	4.13	51.81	14.92	0.3192
66	3446	4.35	45.88	13.19	0.2632
67	3418	8.27	51.25	16.82	0.7129
68	3473	7.83	44.75	17.99	0.6303
69	3456	4.22	54.33	15.70	0.3600
70	3425	7.02	39.16	17.42	0.4788
71	3420	8.84	62.12	15.23	0.8363

72	3490	6.67	62.03	14.85	0.6143
73	3466	7.34	54.92	16.42	0.6621
74	3494	4.13	43.18	14.61	0.2606
75	3443	4.37	61.88	15.48	0.4186
76	3465	4.12	66.52	14.60	0.4001
77	3438	4.28	54.13	12.43	0.2880
78	3491	4.37	57.69	10.09	0.2543
79	3408	8.38	53.76	11.59	0.5221
80	3444	9.18	66.45	13.06	0.7968
81	3457	7.55	60.49	13.99	0.6387
82	3488	4.16	67.64	11.90	0.3349
83	3413	7.33	62.48	12.96	0.5937
84	3469	7.61	64.65	13.70	0.6742
85	3496	4.16	53.27	15.11	0.3349
86	3435	4.49	53.91	14.00	0.3390
87	3404	7.41	48.98	14.80	0.5372
88	3498	7.23	50.75	16.71	0.6131
89	3433	8.9	54.48	15.44	0.7485
90	3431	2.76	48.41	15.00	0.2004
91	3445	4.55	50.17	15.41	0.3517
92	3406	4.12	53.26	15.79	0.3465
93	3450	4.17	54.45	16.14	0.3665
94	3461	4.32	60.57	14.02	0.3668
95	3459	4.53	53.08	16.31	0.3923
96	3415	4.24	55.96	15.03	0.3566
97	3472	4.46	55.29	16.69	0.4117
98	3412	8.62	46.65	18.48	0.7430
99	3424	4.47	45.13	16.37	0.3303
100	3487	3.36	50.49	16.10	0.2732

Date: 26.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 07/18**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	617	8.36	51.43	13.03	0.5601
2	685	7.61	59.50	12.76	0.5776
3	618	6.99	50.21	13.84	0.4858
4	680	8.59	51.83	14.43	0.6425
5	657	4.27	60.09	12.56	0.3224
6	695	8.65	55.47	12.89	0.6185
7	696	4.47	53.77	15.14	0.3639
8	688	7.61	52.53	12.89	0.5152
9	676	7.54	53.76	13.69	0.5549
10	697	4.48	57.74	12.99	0.3360
11	658	8.67	62.04	11.80	0.6346
12	644	4.49	59.04	13.08	0.3466
13	650	4.62	57.99	13.54	0.3627
14	601	6.82	60.13	12.34	0.5060
15	611	4.61	61.36	12.92	0.3656
16	700	6.65	62.11	13.46	0.5559
17	663	4.46	58.88	11.21	0.2944
18	653	4.45	73.16	11.96	0.3894
19	679	7.25	59.75	12.80	0.5546
20	630	8.78	64.56	11.35	0.6436
21	602	7.56	61.09	11.59	0.5352
22	605	4.29	63.88	13.32	0.3651
23	609	7.07	60.75	14.62	0.6278
24	664	7.25	67.51	11.79	0.5771
25	624	8.64	66.51	11.92	0.6852
26	631	8.78	54.67	13.97	0.6708
27	645	4.39	52.56	14.48	0.3341
28	651	8.74	52.86	13.49	0.6232
29	620	7.64	59.83	13.64	0.6234
30	670	6.97	46.79	16.80	0.5478
31	684	7.32	58.95	15.50	0.6690
32	699	7.4	54.35	15.38	0.6186
33	654	4.7	52.38	15.71	0.3868
34	610	4.16	43.42	17.99	0.3249
35	672	8.55	53.48	14.06	0.6430
36	613	6.99	52.49	13.47	0.4942
37	674	8.94	54.20	16.00	0.7751
38	656	7.37	60.24	15.37	0.6825
39	673	7.1	54.18	16.26	0.6255
40	646	8.79	54.22	15.55	0.7410
41	622	3.57	67.16	12.24	0.2935
42	669	6.96	48.98	12.03	0.4099

43	614	7.78	61.09	14.45	0.6870
44	660	8.98	61.98	14.34	0.7983
45	647	4.27	59.26	11.41	0.2887
46	691	7.11	59.75	13.49	0.5731
47	652	8.95	59.35	12.64	0.6712
48	649	7.61	56.80	11.92	0.5152
49	693	8.56	67.23	13.64	0.7850
50	607	8.5	64.39	12.72	0.6961
51	608	6.94	54.75	14.48	0.5503
52	606	7.23	55.80	13.03	0.5256
53	612	4.29	58.86	13.57	0.3428
54	668	4.62	67.51	11.64	0.3631
55	621	7.55	72.79	14.40	0.7912
56	623	8.33	59.02	13.69	0.6731
57	640	4.6	55.57	14.29	0.3652
58	638	4.39	51.50	14.80	0.3345
59	698	4.3	61.24	12.48	0.3285
60	686	7.36	51.79	15.12	0.5763
61	689	8.62	49.58	13.96	0.5965
62	661	8.54	55.24	13.49	0.6362
63	627	7.44	55.38	13.11	0.5401
64	681	7.28	49.24	13.53	0.4848
65	639	7.19	41.57	15.35	0.4587
66	615	4.29	65.92	12.97	0.3668
67	682	8.56	61.34	13.24	0.6951
68	665	4.39	60.21	12.57	0.3323
69	636	7.86	49.85	14.20	0.5565
70	635	7.27	55.73	12.63	0.5118
71	641	4.18	62.99	13.84	0.3645
72	659	4.2	61.54	14.17	0.3662
73	603	8.8	63.02	12.81	0.7102
74	637	4.46	59.80	13.11	0.3497
75	619	7.14	51.41	14.80	0.5434
76	694	8.59	61.55	14.07	0.7439
77	648	9.32	53.50	14.90	0.7428
78	643	8.43	53.62	13.69	0.6188
79	628	3.83	62.54	13.38	0.3206
80	626	6.97	48.80	15.57	0.5297
81	671	7.3	49.36	14.34	0.5168
82	642	8.66	58.53	12.75	0.6460
83	692	4.62	55.13	14.40	0.3668
84	616	4.66	58.79	12.26	0.3360
85	632	7.36	59.60	14.13	0.6197
86	687	7.54	58.10	12.74	0.5580
87	604	7.66	55.07	14.78	0.6235
88	625	8.08	60.23	13.18	0.6416
89	629	8.92	59.73	13.91	0.7413

90	690	7.46	55.55	14.64	0.6065
91	634	4.42	61.39	11.45	0.3107
92	655	7.18	60.46	13.55	0.5880
93	677	4.46	61.35	11.49	0.3144
94	633	7.42	59.05	14.36	0.6292
95	667	7.09	61.86	13.11	0.5750
96	678	8.05	55.44	14.94	0.6665
97	662	4.23	66.42	13.13	0.3689
98	675	7.3	60.76	13.02	0.5774
99	666	9.07	58.98	11.33	0.6059
100	683	7.17	60.25	12.85	0.5550

Date: 25.08.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 15/89**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1469	8.32	57.42	11.89	0.5683
2	1453	7.44	62.65	12.31	0.5736
3	1409	6.5	57.87	14.76	0.5551
4	1412	4.33	66.05	13.49	0.3858
5	1465	7.02	70.41	12.80	0.6325
6	1430	7.39	61.38	12.09	0.5483
7	1446	7.48	60.17	12.75	0.5737
8	1431	7.39	62.49	12.27	0.5668
9	1402	7.67	66.70	12.68	0.6489
10	1442	7.64	65.72	13.54	0.6800
11	1425	4.3	59.97	14.87	0.3836
12	1458	7.01	68.09	14.05	0.6709
13	1411	4.37	62.23	13.69	0.3723
14	1500	8.4	57.65	14.74	0.7140
15	1435	6.71	64.27	15.01	0.6475
16	1468	5.19	52.07	15.79	0.4266
17	1403	4.51	61.32	13.63	0.3770
18	1447	7.56	68.49	12.98	0.6721
19	1460	7.57	70.66	13.02	0.6964
20	1495	6.84	52.88	13.77	0.4980
21	1464	7.29	52.13	13.41	0.5096
22	1452	7.6	63.01	13.20	0.6323
23	1428	7.57	54.90	12.91	0.5367
24	1497	7.21	45.54	13.11	0.4304
25	1439	7.44	57.40	15.28	0.6525
26	1449	4.39	58.28	12.73	0.3257
27	1476	8.94	39.42	15.58	0.5489
28	1492	3.63	57.14	13.21	0.2741
29	1423	4.64	65.68	13.57	0.4134
30	1471	7.1	46.79	14.85	0.4935
31	1480	8.23	54.25	14.14	0.6312
32	1466	6.75	68.16	13.64	0.6278
33	1437	4.38	59.37	12.63	0.3285
34	1440	3.72	59.65	12.99	0.2883
35	1457	4.24	64.77	13.26	0.3642
36	1482	6.98	52.25	13.89	0.5067
37	1426	7.48	60.50	13.52	0.6119
38	1472	6.39	51.87	16.08	0.5329
39	1474	6.62	49.33	13.05	0.4263
40	1485	8.26	50.95	14.33	0.6030
41	1401	7.15	59.42	14.36	0.6099
42	1455	7.51	67.71	14.40	0.7322

43	1477	4.4	56.70	14.50	0.3617
44	1481	4.36	61.89	12.91	0.3484
45	1475	7.02	50.09	12.36	0.4345
46	1462	9.03	69.29	12.79	0.8001
47	1454	7.36	64.12	12.02	0.5675
48	1441	4.53	64.17	13.15	0.3823
49	1414	4.41	71.74	13.66	0.4322
50	1496	7.02	64.98	15.85	0.7231
51	1478	7.16	46.26	15.52	0.5141
52	1443	7.39	58.74	12.99	0.5639
53	1420	3.8	62.96	14.53	0.3477
54	1438	7.39	51.38	13.00	0.4937
55	1445	7.58	53.06	13.40	0.5389
56	1422	4.4	64.12	14.44	0.4074
57	1415	4.57	64.16	14.26	0.4182
58	1483	8.39	51.22	14.17	0.6091
59	1408	7.35	57.90	13.73	0.5843
60	1410	4.32	59.97	12.96	0.3357
61	1463	6.82	62.74	12.18	0.5210
62	1489	8.3	51.72	13.90	0.5968
63	1499	7.23	54.23	14.55	0.5704
64	1491	8.16	52.81	14.45	0.6226
65	1404	8.44	55.76	14.40	0.6777
66	1470	7.92	49.59	15.87	0.6233
67	1493	7.96	54.37	15.62	0.6758
68	1451	7.28	49.09	13.97	0.4994
69	1459	7.59	58.62	14.45	0.6429
70	1405	4.36	53.96	15.83	0.3723
71	1456	7.22	56.16	15.71	0.6368
72	1419	6.86	55.77	15.28	0.5845
73	1418	8.97	60.47	14.14	0.7669
74	1479	8.42	50.82	14.52	0.6214
75	1417	8.23	53.42	14.13	0.6214
76	1484	7.04	62.06	14.41	0.6294
77	1448	7.48	63.99	14.02	0.6710
78	1467	4.43	66.26	12.60	0.3699
79	1421	3.74	76.26	12.58	0.3587
80	1413	4.59	67.53	13.53	0.4195
81	1416	4.61	66.32	11.23	0.3434
82	1488	4.09	65.81	13.95	0.3755
83	1487	6.92	68.40	12.85	0.6083
84	1432	7.37	63.83	12.41	0.5837
85	1436	7.29	52.73	13.62	0.5234
86	1486	8.33	44.95	16.97	0.6356
87	1433	7.62	57.30	13.23	0.5776
88	1429	4.25	50.01	12.96	0.2754
89	1490	8.7	45.23	17.13	0.6742

90	1473	6.38	43.40	14.12	0.3911
91	1407	4.54	61.48	14.04	0.3918
92	1450	7.72	59.72	13.70	0.6315
93	1494	8.12	43.17	14.27	0.5002
94	1434	7.46	54.81	13.59	0.5558
95	1427	7.29	60.67	12.92	0.5715
96	1461	8.12	65.69	13.41	0.7154
97	1424	7.39	56.28	14.32	0.5956
98	1406	7.64	56.47	11.46	0.4943
99	1444	7.5	62.45	11.80	0.5528
100	1498	4.16	55.11	12.18	0.2791

Date: 24.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 17/91**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1611	8.54	55.07	15.29	0.7191
2	1640	4.12	39.19	16.61	0.2682
3	1606	4.4	50.90	14.85	0.3326
4	1628	7.33	57.90	14.68	0.6231
5	1696	4.75	51.97	14.51	0.3582
6	1639	7.35	64.61	13.95	0.6622
7	1681	4.35	53.31	14.09	0.3267
8	1642	4.56	48.93	16.98	0.3789
9	1637	4.4	63.69	14.04	0.3934
10	1619	8.82	54.05	13.49	0.6430
11	1643	4.25	54.69	15.10	0.3510
12	1700	4.53	58.38	14.10	0.3728
13	1688	7.37	61.60	15.00	0.6810
14	1666	7.3	59.18	14.73	0.6366
15	1635	4.24	65.32	11.39	0.3155
16	1670	7.89	63.34	13.32	0.6659
17	1644	6.95	49.58	14.93	0.5143
18	1623	7.42	69.97	11.16	0.5795
19	1672	4.49	55.95	13.42	0.3372
20	1689	4.59	69.23	14.50	0.4608
21	1693	4.34	61.06	12.27	0.3251
22	1650	7.21	55.86	15.06	0.6064
23	1680	7.29	45.90	15.08	0.5045
24	1699	4.42	57.73	13.32	0.3399
25	1614	9.07	48.28	12.24	0.5360
26	1601	7.44	50.65	14.43	0.5439
27	1607	8.84	47.05	14.37	0.5976
28	1675	4.44	46.45	14.27	0.2944
29	1634	7.22	47.12	14.18	0.4823
30	1625	6.97	54.22	12.54	0.4740
31	1629	4.32	49.76	13.44	0.2890
32	1622	8.43	44.16	14.90	0.5547
33	1649	4.82	55.67	14.60	0.3919
34	1674	9.5	55.19	15.76	0.8265
35	1695	4.86	58.80	14.05	0.4014
36	1652	7.43	62.25	15.47	0.7155
37	1687	7.58	59.43	13.46	0.6064
38	1661	7.66	59.16	13.88	0.6289
39	1691	7.48	61.46	15.20	0.6986
40	1633	7.57	63.38	15.02	0.7207
41	1664	7.42	52.71	15.65	0.6121
42	1671	4.46	55.07	13.98	0.3434

43	1658	7.18	63.06	14.49	0.6563
44	1653	7.43	68.90	14.72	0.7534
45	1665	7.53	59.08	15.13	0.6732
46	1669	7.45	56.07	14.14	0.5908
47	1645	7.22	54.01	15.03	0.5863
48	1651	7.84	62.73	13.14	0.6460
49	1620	7.52	56.98	12.51	0.5362
50	1631	8.8	60.38	14.81	0.7867
51	1630	8.77	61.16	13.47	0.7226
52	1612	9.16	52.79	12.43	0.6009
53	1604	8.97	68.11	13.36	0.8163
54	1618	8.9	64.04	14.69	0.8375
55	1673	7.54	66.28	15.54	0.7766
56	1602	8.68	59.67	13.94	0.7222
57	1659	7.59	63.71	15.16	0.7332
58	1685	7.56	66.46	15.27	0.7673
59	1679	7.25	60.09	14.64	0.6380
60	1655	7.49	57.00	14.14	0.6037
61	1608	4.44	56.59	13.48	0.3388
62	1609	7.55	60.44	13.95	0.6365
63	1690	4.37	63.55	14.26	0.3959
64	1638	8.63	68.09	14.08	0.8276
65	1627	7.69	59.56	13.05	0.5975
66	1660	9.26	53.52	14.01	0.6945
67	1647	4.55	59.31	14.10	0.3804
68	1648	4.39	54.10	12.94	0.3073
69	1677	4.63	62.51	13.68	0.3959
70	1692	7.29	56.97	15.25	0.6335
71	1624	7.36	58.40	13.72	0.5895
72	1636	8.54	55.93	12.84	0.6132
73	1654	7.84	57.27	14.88	0.6680
74	1613	4.37	57.00	13.67	0.3404
75	1667	7.55	52.58	15.71	0.6236
76	1684	4.35	50.11	15.11	0.3293
77	1676	7.26	47.27	14.49	0.4973
78	1678	7.29	51.37	15.11	0.5657
79	1603	4.33	52.74	14.87	0.3395
80	1605	8.87	48.36	15.01	0.6440
81	1610	4.58	43.93	15.66	0.3151
82	1662	7.29	46.75	14.48	0.4935
83	1686	7.77	49.04	16.13	0.6146
84	1626	7.65	49.36	13.27	0.5011
85	1615	7.55	52.39	14.68	0.5806
86	1698	7.46	63.18	13.90	0.6550
87	1616	4.52	52.75	14.65	0.3494
88	1617	7.41	55.96	13.58	0.5632
89	1646	4.66	56.42	13.36	0.3514

90	1668	7.57	55.52	14.25	0.5988
91	1632	3.74	53.85	12.57	0.2532
92	1621	8.73	51.95	14.36	0.6513
93	1656	7.17	49.83	15.37	0.5492
94	1682	4.44	49.61	13.97	0.3077
95	1694	7.55	58.36	14.91	0.6569
96	1657	7.11	51.48	13.50	0.4941
97	1641	7.53	54.12	14.17	0.5776
98	1697	7.51	59.93	14.63	0.6586
99	1683	7.21	57.89	14.65	0.6114
100	1663	4.39	54.79	14.07	0.3385

Date: 23.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 30/210**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2980	4.51	58.99	14.29	0.3802
2	2917	4.29	40.08	12.90	0.2218
3	2978	7.42	60.97	13.88	0.6277
4	2937	4.58	63.20	12.47	0.3609
5	2914	4.08	54.75	12.60	0.2815
6	2995	7.22	53.08	11.38	0.4361
7	2952	4.25	52.22	12.14	0.2695
8	2904	4.47	66.89	11.11	0.3321
9	2998	7.32	59.01	12.47	0.5388
10	2939	7.09	61.74	10.84	0.4743
11	2990	4.35	53.31	11.69	0.2710
12	2906	3.69	64.98	11.80	0.2830
13	2946	7.26	55.62	13.74	0.5547
14	2936	8.53	61.47	11.49	0.6022
15	2973	7.41	55.44	14.05	0.5772
16	2977	7.07	56.70	11.66	0.4673
17	2972	4.4	63.08	15.17	0.4211
18	2989	8.48	60.31	11.54	0.5902
19	2996	4.19	61.59	11.54	0.2979
20	2927	4.15	46.27	12.54	0.2407
21	2928	4.19	52.18	13.32	0.2912
22	2956	6.06	55.90	13.15	0.4454
23	2970	7.43	59.21	13.85	0.6093
24	2985	7.06	50.10	11.36	0.4017
25	2942	8.78	68.91	12.70	0.7683
26	2964	4.44	50.83	15.97	0.3605
27	2984	9.01	36.50	16.05	0.5280
28	2965	4.33	49.97	16.63	0.3598
29	2993	7.32	53.10	13.92	0.5409
30	2933	7.33	56.73	14.72	0.6121
31	2945	7.48	45.66	15.13	0.5169
32	2902	4.27	59.81	15.75	0.4022
33	2912	3.81	45.94	16.67	0.2918
34	2944	8.96	71.64	15.09	0.9686
35	2971	4.56	56.01	14.52	0.3707
36	2941	6.72	64.41	15.26	0.6606
37	2987	8.38	54.46	14.76	0.6738
38	2947	3.92	40.30	15.53	0.2454
39	2931	8.84	50.66	15.69	0.7028
40	2905	4.03	66.29	15.79	0.4219
41	2994	4.3	59.55	15.26	0.3909
42	2919	4.49	43.85	17.42	0.3430

43	2935	3.65	60.10	13.93	0.3055
44	2938	4.11	60.05	9.96	0.2458
45	2974	7.34	57.85	15.33	0.6511
46	2959	4.36	47.18	16.89	0.3475
47	2983	4.42	56.37	16.39	0.4084
48	2988	4.15	47.32	15.11	0.2967
49	2991	4.2	52.63	14.44	0.3192
50	2932	7.39	63.71	13.81	0.6503
51	2986	4.51	52.30	12.31	0.2904
52	3000	7.71	55.95	12.92	0.5574
53	2966	4.44	56.63	13.88	0.3490
54	2923	8.48	54.27	12.75	0.5868
55	2979	8.58	64.32	14.12	0.7791
56	2924	4.11	61.29	12.89	0.3247
57	2911	3.88	47.67	11.37	0.2103
58	2907	3.52	64.34	15.06	0.3411
59	2982	7.51	73.45	14.32	0.7901
60	2955	6.96	65.04	13.59	0.6153
61	2929	6.71	58.93	12.83	0.5073
62	2949	4.07	50.02	12.59	0.2564
63	2901	4.16	61.24	12.64	0.3220
64	2913	4.27	49.99	12.56	0.2682
65	2968	4.25	59.53	14.35	0.3629
66	2960	7.33	50.84	14.95	0.5571
67	2992	7.48	57.06	12.92	0.5513
68	2921	7.48	60.86	13.93	0.6343
69	2981	7.35	64.66	14.63	0.6953
70	2925	4.31	60.51	14.23	0.3711
71	2961	4.46	57.86	16.04	0.4139
72	2918	4.2	45.43	14.92	0.2848
73	2953	7.4	47.93	13.92	0.4936
74	2922	4.14	49.72	14.00	0.2881
75	2954	7.5	54.07	14.96	0.6067
76	2962	4.5	55.25	15.17	0.3771
77	2903	4.31	60.15	12.75	0.3306
78	2910	7.3	66.52	14.27	0.6928
79	2967	4.27	55.17	15.01	0.3536
80	2950	4.32	45.72	13.82	0.2730
81	2908	4.58	71.26	12.05	0.3934
82	2915	7.25	46.24	13.56	0.4546
83	2920	7.69	62.91	12.76	0.6175
84	2958	4.47	50.61	13.20	0.2986
85	2909	4.58	73.55	12.70	0.4278
86	2975	7.59	53.15	13.87	0.5594
87	2969	4.4	58.56	14.14	0.3643
88	2963	8.34	56.88	14.56	0.6906
89	2934	6.42	68.68	14.08	0.6208

90	2957	6.18	48.82	13.79	0.4159
91	2948	4.31	48.31	14.70	0.3060
92	2943	4.01	57.77	13.90	0.3220
93	2916	6.69	44.31	16.77	0.4971
94	2930	7.93	48.29	15.92	0.6098
95	2976	4.39	54.23	15.01	0.3573
96	2951	7.46	40.52	17.72	0.5356
97	2926	4.35	57.84	17.31	0.4354
98	2999	4.36	56.87	14.00	0.3471
99	2940	7.2	60.24	15.09	0.6545
100	2997	4.44	52.51	15.03	0.3503

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 34/279

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3341	4.5	53.69	14.43	0.3487
2	3367	4.02	58.80	7.99	0.1889
3	3307	4.95	51.40	14.51	0.3693
4	3302	7.05	61.66	12.99	0.5647
5	3385	7.34	53.64	13.09	0.5153
6	3324	4.33	59.37	13.86	0.3564
7	3330	4.44	57.55	12.70	0.3246
8	3360	8.5	60.97	12.84	0.6656
9	3366	4.26	56.08	10.04	0.2398
10	3318	3.4	54.64	13.60	0.2526
11	3389	4.25	43.89	13.24	0.2469
12	3320	4.47	48.83	13.82	0.3017
13	3311	4.76	60.20	12.67	0.3632
14	3393	8.89	58.89	12.75	0.6676
15	3368	4.5	63.66	9.69	0.2777
16	3388	7.36	36.59	12.33	0.3319
17	3370	4.14	65.82	10.36	0.2823
18	3350	4.16	52.56	10.62	0.2321
19	3322	4.17	60.14	14.50	0.3636
20	3315	4.43	63.01	13.62	0.3801
21	3338	4.47	59.16	10.60	0.2803
22	3325	8.67	60.97	11.25	0.5948
23	3314	4.52	66.67	12.69	0.3824
24	3372	8.12	56.72	11.50	0.5294
25	3381	3.5	43.99	12.32	0.1897
26	3321	4.26	51.89	14.45	0.3195
27	3364	4.19	53.36	12.95	0.2895
28	3375	7.13	59.15	15.16	0.6396
29	3328	7.23	50.93	15.39	0.5668
30	3379	3.78	44.90	14.79	0.2510
31	3357	6.91	49.97	16.25	0.5611
32	3339	4.57	54.49	15.32	0.3816
33	3326	4.3	60.78	14.22	0.3715
34	3356	4.09	60.62	13.66	0.3387
35	3391	3.87	49.86	17.11	0.3301
36	3383	4.41	51.49	14.59	0.3312

37	3333	4.33	46.82	15.40	0.3122
38	3392	4.13	42.32	18.79	0.3283
39	3363	6.56	54.42	11.58	0.4133
40	3380	3.36	45.68	16.86	0.2587
41	3349	7.36	49.17	16.78	0.6072
42	3340	4.55	56.05	14.13	0.3604
43	3398	4.43	48.15	16.86	0.3597
44	3359	7.08	48.84	13.74	0.4751
45	3397	7	55.46	15.13	0.5873
46	3309	4.5	53.56	16.32	0.3933
47	3358	7.08	50.57	14.26	0.5105
48	3337	6.62	49.69	16.02	0.5270
49	3353	4.22	47.04	16.71	0.3317
50	3308	4.44	49.90	14.17	0.3139
51	3354	7.17	63.99	11.70	0.5370
52	3387	4.5	47.59	13.20	0.2826
53	3312	3.63	53.55	14.45	0.2810
54	3331	4.47	62.32	11.81	0.3290
55	3310	3.75	55.67	14.51	0.3030
56	3313	4.69	61.84	12.40	0.3597
57	3303	3.98	61.53	12.89	0.3156
58	3396	8.96	58.92	13.27	0.7007
59	3332	4.09	51.23	13.61	0.2851
60	3304	4.09	48.98	12.88	0.2581
61	3352	4.19	53.94	11.74	0.2652
62	3305	4.68	45.96	13.69	0.2944
63	3329	3.88	57.06	12.48	0.2763
64	3342	7.49	66.78	15.21	0.7610
65	3371	4.68	64.09	11.03	0.3309
66	3317	4.26	57.74	14.77	0.3634
67	3336	4.52	56.23	14.80	0.3761
68	3345	7.19	43.86	16.19	0.5105
69	3400	7.76	50.91	13.77	0.5440
70	3365	7.14	57.95	12.34	0.5105
71	3301	4.12	51.95	15.28	0.3271
72	3386	4.49	47.68	14.09	0.3017
73	3335	7.29	53.85	14.50	0.5693
74	3399	4.49	50.18	15.17	0.3417
75	3362	8.47	45.39	12.38	0.4760
76	3319	8.36	49.11	15.17	0.6228
77	3361	3.99	53.26	15.10	0.3208
78	3378	4.6	60.62	13.28	0.3703
79	3316	4.34	50.07	13.86	0.3012
80	3382	4.49	49.82	14.13	0.3161
81	3351	4.25	46.84	13.83	0.2754
82	3346	4.32	56.95	10.18	0.2506
83	3344	4.51	68.97	13.60	0.4230
84	3323	4.26	63.48	12.32	0.3331
85	3306	4.62	53.53	12.67	0.3132
86	3348	4.28	55.67	14.64	0.3488

87	3390	4.66	44.72	11.29	0.2353
88	3374	7.43	59.35	11.63	0.5127
89	3327	4.18	51.80	13.82	0.2993
90	3355	4.15	61.51	12.58	0.3212
91	3394	8.92	51.90	16.11	0.7457
92	3343	7.5	60.52	14.69	0.6667
93	3347	4.41	54.61	15.88	0.3823
94	3373	4.56	53.36	13.70	0.3333
95	3376	4.59	61.20	15.21	0.4273
96	3384	3.45	54.33	13.75	0.2577
97	3395	7.35	52.72	16.35	0.6336
98	3369	4.16	61.55	13.55	0.3469
99	3377	4.58	60.41	14.70	0.4067
100	3334	4.5	49.08	16.10	0.3555

Date: 20.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 10/44**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	941	7.53	50.96	13.80	0.5294
2	916	8.07	57.87	13.50	0.6303
3	974	3.52	57.10	13.12	0.2636
4	992	7.54	52.84	12.62	0.5029
5	998	7.85	58.45	13.28	0.6092
6	928	9.24	59.30	14.99	0.8214
7	983	8.31	52.92	13.51	0.5942
8	958	8.85	59.95	14.73	0.7815
9	960	7.53	61.43	13.80	0.6385
10	995	8.78	55.06	15.56	0.7524
11	950	7.11	57.67	11.65	0.4778
12	923	4.23	53.16	12.34	0.2775
13	922	7.58	59.28	12.33	0.5541
14	963	7.01	57.84	12.90	0.5229
15	980	7.36	58.95	14.66	0.6359
16	947	8.67	61.99	12.21	0.6563
17	996	7.58	56.12	13.20	0.5617
18	962	7.28	57.49	12.49	0.5227
19	994	7.74	57.82	13.39	0.5991
20	990	7.56	59.41	13.67	0.6139
21	954	4.38	56.16	12.62	0.3105
22	944	4.51	61.80	11.86	0.3306
23	904	6.9	59.52	11.86	0.4871
24	936	7.56	54.35	12.99	0.5337
25	949	7.49	65.64	12.00	0.5902
26	911	3.56	54.98	12.00	0.2350
27	935	7.22	53.11	12.11	0.4642
28	973	7.1	60.22	12.45	0.5325
29	906	4.23	57.89	13.28	0.3253
30	920	7.4	42.25	11.46	0.3582
31	914	8.57	49.69	11.43	0.4868
32	967	7.2	56.40	12.62	0.5126
33	959	7.07	52.43	12.63	0.4680
34	993	7.46	52.76	12.55	0.4939
35	979	4.15	61.00	12.31	0.3117
36	937	4.43	52.47	12.04	0.2800
37	997	7.68	58.38	15.64	0.7012
38	966	4.31	56.16	15.28	0.3698
39	943	4.3	46.04	13.64	0.2700
40	902	7.2	49.07	14.47	0.5112
41	972	3.9	45.42	16.09	0.2851
42	978	7.33	60.58	15.12	0.6714

43	955	4.38	46.83	13.82	0.2834
44	957	7.06	46.04	14.79	0.4808
45	918	7.22	49.86	14.54	0.5235
46	989	9.09	54.48	14.85	0.7354
47	969	7.15	56.28	13.65	0.5491
48	981	7.38	62.24	13.79	0.6332
49	977	7.11	56.01	13.32	0.5304
50	932	8.8	58.98	13.77	0.7146
51	907	7.57	55.05	15.60	0.6503
52	909	4.37	38.64	17.60	0.2972
53	940	7.71	57.22	14.16	0.6245
54	915	4.61	57.37	15.30	0.4048
55	971	6.95	54.23	14.51	0.5470
56	934	7.15	62.94	14.36	0.6464
57	919	8.62	40.34	16.29	0.5663
58	926	9.02	54.73	15.31	0.7559
59	912	8.58	56.31	13.87	0.6701
60	975	8.39	50.63	14.71	0.6251
61	925	8.82	58.66	12.99	0.6721
62	982	8.43	68.07	12.19	0.6997
63	927	9.09	60.21	12.27	0.6718
64	942	7.38	53.27	12.24	0.4812
65	910	8.37	55.39	12.15	0.5633
66	1000	7.66	57.51	12.66	0.5576
67	939	4.35	55.14	11.57	0.2775
68	968	7.31	58.04	11.29	0.4788
69	965	8.28	57.64	10.86	0.5183
70	985	9.81	52.51	15.20	0.7828
71	938	8.77	53.02	13.20	0.6139
72	917	8.96	58.25	12.14	0.6335
73	952	8.39	53.55	12.47	0.5605
74	976	8.23	56.38	13.62	0.6321
75	929	8.87	63.58	12.83	0.7238
76	913	9.16	61.29	13.10	0.7355
77	945	7.38	54.74	10.74	0.4339
78	987	9.67	55.35	12.85	0.6875
79	948	8.69	61.88	11.94	0.6422
80	903	8.94	48.15	13.46	0.5793
81	956	7.33	61.16	13.06	0.5857
82	986	7.53	54.82	13.04	0.5384
83	953	4.3	49.97	12.99	0.2791
84	961	4.24	62.82	12.10	0.3222
85	991	7.89	56.69	13.72	0.6138
86	933	7.47	49.33	13.99	0.5154
87	999	7.7	53.40	14.03	0.5767
88	964	7.36	49.62	15.64	0.5711
89	905	4.39	52.49	15.60	0.3595

90	970	7.16	52.87	14.20	0.5377
91	930	8.5	57.09	14.56	0.7064
92	984	10.08	55.67	14.66	0.8225
93	946	8.43	51.49	15.11	0.6559
94	921	8.23	46.12	16.33	0.6197
95	908	7.28	48.72	15.48	0.5489
96	901	7.2	52.33	14.81	0.5580
97	988	8.32	57.28	15.00	0.7147
98	951	7.27	53.94	14.72	0.5772
99	931	8.77	57.57	14.66	0.7402
100	924	9.27	58.14	13.09	0.7054

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 31/276

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3093	4.29	57.00	13.67	0.3342
2	3058	7.45	52.58	14.44	0.5655
3	3078	4.16	54.69	14.41	0.3278
4	3051	4.29	49.18	15.03	0.3170
5	3090	4.03	64.79	14.38	0.3756
6	3066	4.13	65.39	14.10	0.3808
7	3097	4.16	56.81	14.13	0.3340
8	3081	4.33	57.67	15.02	0.3750
9	3083	4.35	58.97	14.65	0.3758
10	3034	4.5	59.52	13.49	0.3614
11	3032	6.96	50.20	14.06	0.4914
12	3012	7.2	61.85	13.99	0.6228
13	3022	7.11	52.30	13.37	0.4970
14	3026	7.33	59.58	12.72	0.5556
15	3042	8.36	66.43	15.16	0.8419
16	3001	3.43	55.13	11.59	0.2192
17	3019	8.42	57.12	12.29	0.5911
18	3006	7.28	62.37	11.64	0.5285
19	3099	4.07	58.88	14.01	0.3358
20	3008	4.19	61.95	11.93	0.3096
21	3076	6.83	57.91	13.92	0.5505
22	3086	4.2	60.78	12.90	0.3293
23	3009	8.57	66.03	11.69	0.6616
24	3087	7.1	56.89	15.24	0.6156
25	3015	8.75	52.69	11.99	0.5530
26	3044	4.57	62.33	14.60	0.4159
27	3029	7.14	56.82	12.55	0.5091
28	3062	7.51	64.73	13.26	0.6444
29	3002	4.55	66.15	11.52	0.3467
30	3028	7.27	60.92	12.13	0.5373
31	3077	4.46	60.35	11.96	0.3220
32	3098	4.4	56.93	12.28	0.3076
33	3004	4.39	70.33	13.08	0.4039

34	3084	7.42	53.44	12.87	0.5105
35	3050	6.9	56.29	12.51	0.4858
36	3089	4.23	60.09	13.63	0.3464
37	3020	7.52	48.26	12.39	0.4497
38	3003	4.25	59.34	12.82	0.3234
39	3091	7.52	60.26	12.98	0.5881
40	3088	8.53	61.02	13.18	0.6858
41	3036	4.55	55.61	13.76	0.3481
42	3095	4.43	55.82	12.49	0.3088
43	3035	7.57	53.07	13.15	0.5284
44	3043	7.17	72.89	13.34	0.6969
45	3079	4.15	45.93	14.22	0.2710
46	3059	4.32	57.58	14.29	0.3555
47	3046	7.01	56.50	14.60	0.5783
48	3025	4.38	62.28	12.07	0.3294
49	3061	4.26	52.85	14.32	0.3225
50	3014	3.7	62.10	12.05	0.2768
51	3021	7.28	41.85	14.84	0.4521
52	3069	4.07	55.91	14.99	0.3411
53	3039	4.4	60.59	14.23	0.3793
54	3040	8.56	50.40	14.82	0.6394
55	3064	3.89	54.15	16.18	0.3408
56	3065	4.11	56.19	14.50	0.3350
57	3056	2.96	55.61	15.21	0.2504
58	3030	7.03	51.07	14.31	0.5139
59	3075	4.27	42.14	16.82	0.3027
60	3052	4.23	51.09	15.82	0.3418
61	3016	4.14	49.32	16.85	0.3440
62	3070	4.27	55.47	15.31	0.3625
63	3017	7.11	44.92	16.90	0.5396
64	3060	4.15	54.07	16.87	0.3785
65	3096	4.12	42.85	17.92	0.3164
66	3007	4.49	65.83	12.82	0.3790
67	3055	7.01	54.53	13.33	0.5096
68	3024	7.35	61.37	12.58	0.5674
69	3092	6.8	60.87	12.81	0.5304
70	3045	7.06	56.44	13.22	0.5267
71	3011	7	60.76	10.15	0.4319
72	3031	8.62	52.16	11.39	0.5120
73	3010	7.36	64.58	12.00	0.5704
74	3073	4.52	77.45	12.46	0.4362
75	3027	4.47	61.47	12.72	0.3496
76	3047	7.12	54.77	12.43	0.4849
77	3037	8.58	63.28	12.31	0.6684
78	3041	8.35	62.27	12.86	0.6688
79	3068	4.16	61.74	14.37	0.3690
80	3067	6.58	69.33	13.72	0.6258

81	3074	4.17	51.38	12.63	0.2706
82	3063	6.95	59.93	14.00	0.5831
83	3094	3.78	54.10	12.31	0.2517
84	3082	4.35	53.08	12.79	0.2954
85	3033	4.29	58.50	11.52	0.2891
86	3080	4.07	57.48	12.58	0.2943
87	3038	8.45	65.06	11.90	0.6540
88	3057	6.77	60.89	13.40	0.5524
89	3018	4.17	54.49	12.83	0.2915
90	3048	8.47	63.37	13.54	0.7267
91	3005	7.37	62.32	13.43	0.6169
92	3023	7.33	55.96	14.96	0.6135
93	3054	7.29	49.41	14.45	0.5205
94	3049	8.66	60.64	14.91	0.7829
95	3071	6.51	59.97	15.16	0.5918
96	3072	7.18	55.60	15.18	0.6060
97	3100	4.25	55.34	15.07	0.3545
98	3013	7.2	65.65	14.99	0.7085
99	3085	6.94	45.88	14.08	0.4483
100	3053	6.5	56.31	15.81	0.5785

Date: 18.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 02/06**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	150	8.97	52.25	13.74	0.6440
2	196	7.24	58.26	13.44	0.5669
3	148	7.9	48.43	15.75	0.6028
4	106	7.48	50.49	16.32	0.6164
5	102	8.89	52.81	14.56	0.6836
6	179	7.59	55.93	15.41	0.6543
7	147	7.44	60.42	14.52	0.6525
8	120	8.68	58.59	14.87	0.7560
9	141	7.32	54.78	14.88	0.5966
10	180	7.42	44.00	15.98	0.5216
11	195	7.03	44.73	12.18	0.3831
12	154	7.01	41.09	12.02	0.3463
13	127	6.2	49.61	16.63	0.5115
14	110	8.63	52.64	13.87	0.6300
15	173	7.14	42.09	13.04	0.3920
16	117	7.47	46.39	16.94	0.5871
17	121	7.51	55.74	14.51	0.6076
18	105	8.52	57.92	13.16	0.6492
19	111	7.49	49.92	15.97	0.5970
20	185	8.52	51.89	12.72	0.5623
21	123	8.96	40.81	13.70	0.5009
22	157	8.5	52.71	12.26	0.5491
23	136	8.27	62.67	13.50	0.6996
24	143	7.35	54.47	11.18	0.4476
25	124	8.87	56.88	13.66	0.6892
26	198	6.2	62.44	13.18	0.5103
27	153	7.1	55.41	13.70	0.5389
28	131	4.4	61.20	12.76	0.3436
29	122	8.35	57.67	14.98	0.7214
30	197	4.02	57.60	12.62	0.2923
31	169	8.97	43.02	14.18	0.5472
32	132	8.07	59.20	13.63	0.6512
33	184	7.23	36.06	14.23	0.3709
34	151	6.93	57.01	14.72	0.5814
35	140	7.55	54.94	11.32	0.4696
36	171	8.73	54.60	15.18	0.7237
37	107	7.52	52.50	15.58	0.6151
38	114	7.36	47.34	14.53	0.5064
39	165	4.1	57.23	14.28	0.3350
40	194	8.58	37.79	14.66	0.4753
41	175	4.28	46.18	14.70	0.2906
42	163	4.28	64.83	16.06	0.4455

43	137	6.57	62.29	16.13	0.6603
44	129	7.54	56.37	13.23	0.5625
45	118	7.55	48.37	14.70	0.5368
46	128	4.36	60.79	15.15	0.4016
47	174	8.93	43.28	16.45	0.6358
48	145	4.46	47.73	14.37	0.3060
49	113	8.36	53.09	16.03	0.7114
50	189	3.67	52.52	14.09	0.2716
51	108	8.56	56.40	14.22	0.6865
52	135	8.04	60.63	14.73	0.7180
53	187	7.13	45.04	15.45	0.4962
54	126	8.57	43.81	17.42	0.6539
55	158	8.41	51.93	14.21	0.6207
56	193	8.47	52.40	13.57	0.6022
57	192	6.68	46.86	16.82	0.5264
58	167	4.32	55.57	14.68	0.3525
59	161	4.12	46.55	15.75	0.3020
60	186	6.44	60.34	12.84	0.4991
61	162	7.3	36.59	14.54	0.3884
62	138	6.98	58.68	14.50	0.5940
63	119	7.32	41.93	14.83	0.4553
64	176	4.1	51.73	13.96	0.2960
65	112	8.53	48.03	15.01	0.6150
66	168	7.03	42.43	15.81	0.4717
67	155	7.04	46.58	16.17	0.5301
68	125	7.46	38.68	16.44	0.4745
69	178	8.94	40.69	14.35	0.5221
70	152	7.26	47.20	15.89	0.5445
71	172	8.95	48.50	15.09	0.6551
72	160	9.01	48.96	12.99	0.5730
73	191	8.38	44.70	13.29	0.4978
74	104	6.23	44.57	14.18	0.3937
75	159	8.5	46.66	11.34	0.4496
76	183	7.53	50.89	15.64	0.5994
77	181	4.5	50.40	15.83	0.3591
78	182	7.98	45.94	16.54	0.6065
79	101	7.19	55.77	14.51	0.5817
80	146	7.42	52.43	15.62	0.6077
81	177	7.64	48.94	15.08	0.5638
82	109	8.77	53.58	14.61	0.6867
83	116	8.48	49.95	16.12	0.6826
84	142	7.54	50.13	14.60	0.5519
85	144	8.79	40.32	15.28	0.5415
86	164	8.88	59.40	15.29	0.8063
87	115	8.69	46.35	16.22	0.6535
88	139	3.73	47.49	12.57	0.2227
89	134	4.38	52.73	13.83	0.3193

90	149	8.75	47.22	14.61	0.6038
91	133	6.51	50.89	15.37	0.5091
92	166	7.18	55.22	13.67	0.5421
93	188	8.7	48.27	14.90	0.6255
94	130	5.72	43.03	16.94	0.4170
95	190	8.43	51.76	13.50	0.5893
96	200	4.43	56.13	12.90	0.3207
97	170	7.32	47.61	14.91	0.5197
98	199	6.72	56.05	13.49	0.5080
99	156	4.14	58.44	14.13	0.3420
100	103	9.03	57.63	14.70	0.7648

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 03/07

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	231	7.28	52.77	14.44	0.5547
2	268	6.61	48.60	13.31	0.4277
3	251	7.49	51.94	14.15	0.5505
4	279	7.4	56.03	13.23	0.5483
5	252	7.32	49.66	14.50	0.5270
6	208	7.36	53.75	15.29	0.6050
7	256	7.48	54.46	14.34	0.5842
8	277	7.64	61.06	14.49	0.6761
9	276	6.52	55.79	14.84	0.5399
10	219	8.89	51.58	14.52	0.6659
11	246	7.53	55.50	13.10	0.5474
12	220	6.76	44.62	14.03	0.4232
13	286	3.4	58.63	11.51	0.2295
14	204	7.45	51.06	14.12	0.5371
15	236	7.59	48.41	13.18	0.4842
16	221	7.47	51.20	15.63	0.5976
17	259	7.58	62.04	14.57	0.6852
18	239	7.41	50.53	13.62	0.5098
19	241	7.23	51.84	13.56	0.5083
20	214	8.95	47.33	14.52	0.6149
21	257	4.23	63.43	14.96	0.4014
22	266	8.07	56.27	11.57	0.5254
23	292	6.92	61.58	11.98	0.5107
24	223	7.2	48.03	15.01	0.5191
25	289	8.39	60.20	12.76	0.6444
26	248	7.63	62.69	13.89	0.6646
27	245	7.48	57.24	12.46	0.5333
28	201	7.4	59.38	12.93	0.5683
29	210	7.08	50.69	15.43	0.5537
30	294	7.96	60.83	11.03	0.5341
31	260	9.13	62.93	7.56	0.4346
32	270	8.76	55.33	12.85	0.6228
33	244	7.43	56.08	15.51	0.6464
34	216	7.48	53.71	12.59	0.5056
35	278	8.69	59.16	12.42	0.6387
36	207	7.48	52.88	14.90	0.5894

37	293	7.33	46.31	14.66	0.4977
38	253	7.34	51.36	14.82	0.5586
39	227	7.96	40.72	16.23	0.5262
40	262	7.1	49.91	12.20	0.4324
41	226	7.21	50.82	14.66	0.5371
42	282	8.84	59.19	12.42	0.6497
43	206	9.18	50.64	14.06	0.6536
44	295	8.51	50.63	13.51	0.5821
45	230	7.46	61.19	14.05	0.6416
46	234	7.65	58.93	15.32	0.6908
47	205	7.25	46.42	12.45	0.4190
48	209	7.45	53.97	13.77	0.5535
49	264	6.4	45.34	12.84	0.3725
50	261	8.52	43.66	13.99	0.5206
51	285	8.4	56.61	12.58	0.5981
52	283	8.55	51.49	15.44	0.6797
53	273	8.49	54.36	14.92	0.6885
54	229	8.72	50.28	15.69	0.6880
55	217	9.04	41.91	15.94	0.6039
56	232	7.3	57.19	14.15	0.5906
57	203	7.49	47.95	14.47	0.5198
58	263	3.9	53.15	14.71	0.3050
59	255	7.29	51.17	14.21	0.5300
60	235	7.12	50.77	14.69	0.5312
61	250	7.48	55.22	14.56	0.6014
62	272	8.51	49.74	12.36	0.5234
63	215	7.11	53.69	13.99	0.5340
64	238	7.58	52.06	13.85	0.5465
65	228	7.6	50.35	14.48	0.5540
66	288	4.34	49.64	12.95	0.2791
67	284	7.87	43.08	13.32	0.4517
68	213	7	43.01	14.53	0.4375
69	290	8.55	47.68	13.19	0.5378
70	224	7.01	45.67	13.40	0.4290
71	287	7.14	60.52	12.84	0.5548
72	237	9.11	50.87	13.17	0.6104
73	211	6.9	50.47	14.68	0.5113
74	271	4.33	52.93	11.75	0.2693
75	233	8.85	53.10	13.77	0.6469
76	275	7.3	54.12	13.19	0.5212
77	267	6.92	49.67	14.92	0.5128
78	300	4.48	55.64	13.03	0.3248
79	297	4.41	63.48	13.07	0.3660
80	258	8.93	60.46	14.59	0.7876
81	269	4.34	48.75	10.81	0.2287
82	254	7.39	49.89	14.51	0.5350
83	242	8.61	54.81	14.47	0.6828
84	212	7.16	52.27	13.64	0.5105
85	218	7.38	50.21	14.22	0.5269
86	222	8.96	53.38	14.91	0.7132

87	265	7.14	52.72	13.43	0.5055
88	281	8.26	54.66	13.89	0.6269
89	202	4.39	53.96	14.29	0.3385
90	225	8.72	48.73	13.97	0.5938
91	296	4.2	59.73	12.74	0.3196
92	299	6.96	63.26	12.03	0.5297
93	291	4.18	56.61	13.85	0.3277
94	274	8.41	58.06	13.59	0.6635
95	298	4.33	62.63	11.62	0.3152
96	249	7.66	52.10	14.57	0.5814
97	243	8.49	51.98	13.66	0.6028
98	247	7.33	54.04	13.58	0.5380
99	240	7.7	59.58	14.03	0.6437
100	280	6.9	54.89	14.70	0.5568

Date: 14.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 04/15**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	400	7.41	54.45	13.66	0.5513
2	331	4.54	49.53	14.66	0.3296
3	350	7.39	56.14	13.40	0.5557
4	344	7.52	54.15	14.68	0.5978
5	315	7.57	55.32	13.67	0.5723
6	327	4.62	55.23	14.39	0.3673
7	396	7.77	55.47	14.57	0.6278
8	309	6.84	60.33	13.58	0.5602
9	368	4.37	56.61	15.12	0.3741
10	351	7.61	53.79	14.04	0.5746
11	329	4.3	56.47	14.04	0.3410
12	310	7.5	55.03	14.88	0.6142
13	388	4.6	43.39	11.68	0.2332
14	380	7	60.32	12.80	0.5404
15	345	7.28	53.57	14.78	0.5766
16	352	9.23	60.00	12.82	0.7098
17	377	7.43	46.30	13.95	0.4800
18	367	7.35	50.49	15.41	0.5718
19	354	9.26	52.22	13.96	0.6751
20	323	9.67	52.34	12.53	0.6344
21	343	4.45	53.87	15.02	0.3600
22	313	4.64	45.29	13.98	0.2937
23	392	4.5	38.76	15.69	0.2736
24	324	9.91	52.51	12.45	0.6481
25	390	4.73	40.20	14.48	0.2753
26	383	7.42	39.17	16.95	0.4927
27	371	8.7	50.76	14.18	0.6264
28	317	5.93	52.89	14.48	0.4542
29	341	7.53	51.96	14.24	0.5572
30	307	7.14	52.70	14.71	0.5533
31	338	7.56	54.52	14.86	0.6124
32	370	7.48	53.05	14.04	0.5573
33	382	4.45	43.43	17.87	0.3453
34	364	7.4	56.70	14.51	0.6090
35	304	7.34	53.81	14.79	0.5843
36	301	8.33	56.48	13.01	0.6123
37	397	8.02	46.80	16.39	0.6151
38	358	7.31	53.97	15.25	0.6016
39	335	7.51	41.66	16.78	0.5249
40	303	7.2	56.45	13.91	0.5652
41	356	7.59	48.63	14.70	0.5427
42	322	7.26	55.95	15.32	0.6222

43	333	4.51	43.62	16.46	0.3238
44	384	7.64	36.09	15.99	0.4408
45	357	4.43	49.63	15.68	0.3447
46	349	7.47	55.16	15.10	0.6223
47	346	7.48	51.32	13.29	0.5101
48	360	7.06	49.90	13.71	0.4829
49	359	4.17	54.17	13.49	0.3048
50	379	4.35	53.94	14.76	0.3463
51	325	4.42	62.37	14.99	0.4133
52	353	7.37	52.14	15.75	0.6051
53	348	7.6	48.67	15.37	0.5685
54	328	7.77	54.77	14.81	0.6301
55	365	3.09	53.68	17.40	0.2886
56	321	7.82	61.92	14.08	0.6819
57	376	4.4	59.83	13.67	0.3599
58	311	7.36	57.00	13.91	0.5836
59	369	4.23	58.00	13.38	0.3282
60	340	7.42	55.84	13.38	0.5543
61	398	8.44	52.64	13.81	0.6136
62	387	7.72	47.70	14.63	0.5389
63	362	4.25	61.22	14.13	0.3676
64	308	9.39	62.22	13.02	0.7606
65	332	7.55	55.44	13.91	0.5821
66	366	9.06	55.22	14.00	0.7003
67	355	7.5	58.07	14.69	0.6397
68	306	7.44	47.65	15.84	0.5617
69	347	7.23	55.93	14.71	0.5950
70	336	7.63	46.50	15.96	0.5661
71	337	7.52	42.77	15.48	0.4978
72	339	7.6	54.33	14.21	0.5867
73	302	4.33	45.59	15.09	0.2979
74	385	7.08	35.71	15.26	0.3859
75	361	8.76	52.53	13.17	0.6062
76	312	7.45	58.67	13.45	0.5878
77	378	7.34	55.24	13.07	0.5299
78	386	8.65	32.56	14.74	0.4152
79	318	7.42	49.64	13.34	0.4912
80	330	3.55	46.01	13.82	0.2258
81	389	6.59	38.66	16.27	0.4145
82	394	6.99	33.28	14.66	0.3411
83	316	8.18	44.04	13.76	0.4957
84	375	8.85	53.07	15.77	0.7407
85	326	7.81	52.64	14.91	0.6131
86	393	8.53	44.75	15.55	0.5937
87	395	4.58	55.72	14.59	0.3724
88	381	7.27	60.08	13.83	0.6041
89	314	7.78	55.06	14.37	0.6154

90	319	4.39	55.72	14.41	0.3525
91	373	4.41	51.07	13.00	0.2928
92	305	7.12	45.77	15.27	0.4977
93	372	4.31	53.15	12.98	0.2974
94	399	5.45	47.58	15.57	0.4038
95	363	4.44	52.46	15.19	0.3539
96	391	7.09	37.20	15.78	0.4162
97	374	8.73	52.01	14.57	0.6617
98	320	7.59	55.61	13.09	0.5526
99	342	7.49	53.94	14.05	0.5677
100	334	4.47	52.63	14.61	0.3437

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 06/17

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	543	7.24	54.35	14.39	0.5662
2	529	7.26	62.22	12.86	0.5808
3	596	3.72	55.16	13.23	0.2716
4	591	7.41	47.03	14.61	0.5091
5	545	4.3	55.90	15.01	0.3608
6	580	4.27	58.33	13.06	0.3254
7	502	8.47	50.46	13.50	0.5768
8	552	4.31	40.60	16.65	0.2914
9	533	4.23	50.83	15.27	0.3282
10	563	8.75	51.04	14.44	0.6449
11	570	8.43	50.34	12.99	0.5513
12	582	3.81	51.34	12.99	0.2541
13	555	3.73	52.64	12.71	0.2495
14	549	4.38	46.59	14.96	0.3053
15	525	4.29	55.18	14.14	0.3346
16	572	7.38	56.59	12.09	0.5048
17	586	8.48	55.89	13.83	0.6555
18	574	7.59	52.06	11.66	0.4607
19	565	6.96	57.27	14.75	0.5881
20	595	4.42	49.09	14.04	0.3045
21	541	7.15	39.51	17.11	0.4833
22	554	9.26	46.77	15.07	0.6528
23	558	4.11	48.38	16.08	0.3198
24	537	7.13	50.39	15.26	0.5483
25	538	8.49	46.25	14.96	0.5875
26	531	4.32	59.27	13.60	0.3482
27	564	8.73	51.60	14.46	0.6513
28	560	7.48	53.06	14.68	0.5827
29	504	5.72	57.42	13.34	0.4382
30	508	7.18	61.00	15.11	0.6620
31	506	8.46	52.69	15.77	0.7030
32	590	7.08	45.67	14.54	0.4701
33	559	9.36	46.19	14.03	0.6065

34	576	4.39	57.40	15.30	0.3854
35	510	8.46	61.67	14.03	0.7318
36	512	7.34	56.68	15.00	0.6239
37	548	4.48	49.93	15.88	0.3553
38	519	8.74	57.66	12.52	0.6310
39	507	4.3	51.52	14.25	0.3156
40	522	9.03	51.29	12.77	0.5915
41	557	7.37	48.20	14.38	0.5107
42	566	6.66	54.00	15.24	0.5481
43	581	8.4	45.33	14.98	0.5704
44	587	4.34	63.59	15.05	0.4153
45	556	7.64	50.32	12.88	0.4951
46	567	7.52	55.65	13.28	0.5557
47	561	4.12	55.10	15.39	0.3494
48	589	7.45	41.38	14.89	0.4589
49	528	8.99	59.21	14.71	0.7830
50	505	4.2	50.27	16.55	0.3494
51	573	7.15	52.21	14.52	0.5420
52	575	4.46	55.12	16.09	0.3956
53	539	7.27	45.01	16.60	0.5431
54	579	7.4	49.12	16.06	0.5839
55	598	7.29	56.07	13.11	0.5358
56	577	7.46	54.13	13.10	0.5289
57	518	7.24	56.59	13.73	0.5625
58	503	7.33	64.94	12.72	0.6055
59	536	7.3	50.02	14.65	0.5351
60	547	7.64	57.13	15.79	0.6891
61	501	8.57	65.16	13.40	0.7482
62	569	7.6	53.49	14.11	0.5738
63	515	7.46	57.95	12.58	0.5438
64	546	9	60.27	15.25	0.8271
65	542	7.04	52.19	13.99	0.5139
66	524	4.16	56.89	14.62	0.3461
67	511	8.48	55.29	13.29	0.6233
68	553	7.52	46.97	13.92	0.4918
69	562	4.25	54.81	14.38	0.3349
70	544	8.43	42.04	15.34	0.5437
71	592	4.18	47.12	14.28	0.2813
72	594	6.19	44.31	14.06	0.3856
73	597	4.24	55.29	15.39	0.3608
74	516	7.07	58.76	14.31	0.5946
75	527	7.24	72.53	13.39	0.7030
76	530	9.01	55.09	11.56	0.5739
77	584	8.15	51.09	15.31	0.6373
78	551	8.73	42.23	14.59	0.5378
79	513	7.24	45.79	14.17	0.4699
80	532	7.04	57.05	13.18	0.5294

81	535	7.35	39.72	16.21	0.4733
82	568	7	47.26	15.64	0.5173
83	534	7.52	43.87	14.27	0.4708
84	526	7.09	48.30	14.84	0.5084
85	540	7.28	51.13	15.27	0.5686
86	571	7.47	53.24	13.43	0.5341
87	583	4.34	55.50	14.02	0.3377
88	521	8.42	53.32	13.30	0.5970
89	578	8.24	53.83	16.07	0.7128
90	523	4.19	48.38	15.44	0.3130
91	599	7.29	50.05	13.59	0.4957
92	517	8.63	53.06	13.87	0.6352
93	520	4.41	48.05	13.51	0.2862
94	550	4.67	48.06	15.02	0.3372
95	509	4.28	51.66	12.85	0.2842
96	600	7.2	64.94	13.01	0.6084
97	585	7.33	58.06	14.80	0.6296
98	514	7.21	56.45	13.82	0.5624
99	593	7.82	43.91	14.07	0.4833
100	588	4.17	46.02	15.69	0.3011

Date: 11.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 29/209**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2843	4.59	50.04	16.31	0.3745
2	2851	7.43	55.22	15.68	0.6434
3	2862	4.41	59.37	15.92	0.4167
4	2823	4.6	49.96	12.91	0.2967
5	2869	4.62	60.40	14.67	0.4093
6	2856	7.33	53.41	14.62	0.5725
7	2839	4.25	54.04	14.73	0.3383
8	2855	4.54	58.20	15.19	0.4013
9	2890	4.41	62.60	13.79	0.3806
10	2825	4.56	57.86	12.88	0.3397
11	2822	8.63	58.90	14.84	0.7543
12	2824	8.95	57.66	13.74	0.7088
13	2861	8.92	61.28	12.68	0.6931
14	2803	7.47	62.05	14.83	0.6872
15	2815	7.56	58.06	14.28	0.6267
16	2857	4.48	53.95	16.14	0.3902
17	2880	4.47	63.72	14.60	0.4157
18	2863	4.42	56.35	15.58	0.3881
19	2807	4.32	47.34	16.67	0.3408
20	2814	4.54	62.48	14.04	0.3982
21	2816	7.27	53.77	14.88	0.5816
22	2867	4.25	61.53	14.56	0.3808
23	2802	4.4	59.35	14.00	0.3656
24	2895	4.3	66.60	15.72	0.4502
25	2850	4.45	61.57	14.20	0.3889
26	2810	4.24	53.61	14.12	0.3210
27	2886	8.86	57.97	12.68	0.6512
28	2837	4.43	56.47	13.97	0.3495
29	2898	4.39	61.25	12.72	0.3420
30	2845	9.66	58.03	13.42	0.7525
31	2883	4.14	59.69	13.27	0.3279
32	2829	4.44	57.48	14.14	0.3610
33	2853	4.6	58.38	15.35	0.4122
34	2874	4.37	58.64	11.78	0.3020
35	2882	4.28	61.59	13.40	0.3531
36	2889	4.54	64.28	13.25	0.3868
37	2827	4.51	60.90	14.53	0.3991
38	2866	4.49	64.56	12.19	0.3534
39	2842	9.35	51.13	15.22	0.7274
40	2865	4.4	60.29	14.38	0.3815
41	2844	4.5	54.74	14.63	0.3605
42	2891	4.15	61.93	14.95	0.3843

43	2893	3.59	63.25	15.11	0.3432
44	2805	4.49	51.32	14.32	0.3300
45	2894	7.3	63.99	15.08	0.7045
46	2819	3.78	55.20	13.39	0.2793
47	2899	7.21	64.42	13.83	0.6424
48	2813	4.45	54.95	12.54	0.3066
49	2848	7.83	60.41	12.51	0.5919
50	2841	4.66	53.66	14.70	0.3677
51	2872	4.2	49.20	15.91	0.3289
52	2877	3.56	57.94	12.46	0.2570
53	2846	4.56	48.79	13.61	0.3028
54	2860	4.4	61.04	15.81	0.4246
55	2801	4.37	59.82	16.13	0.4217
56	2830	7.56	57.82	12.04	0.5262
57	2838	8.68	50.34	15.04	0.6571
58	2852	4.54	57.63	14.40	0.3768
59	2828	4.5	63.39	11.69	0.3334
60	2884	4.45	52.58	13.66	0.3195
61	2888	4.17	68.64	14.13	0.4045
62	2864	4.34	55.88	13.40	0.3251
63	2885	8.49	61.44	14.24	0.7429
64	2817	4.13	49.51	15.73	0.3217
65	2900	4.24	66.55	12.76	0.3600
66	2896	4.51	55.00	13.20	0.3274
67	2821	9.13	57.37	14.57	0.7633
68	2818	4.35	58.00	13.84	0.3493
69	2812	9.57	44.55	15.49	0.6603
70	2849	7.2	59.82	13.47	0.5803
71	2840	9.03	51.44	14.83	0.6890
72	2878	4	61.57	14.42	0.3552
73	2809	4.39	57.57	14.63	0.3696
74	2808	4.57	48.09	12.91	0.2838
75	2876	7.45	52.08	14.98	0.5811
76	2881	4.32	54.42	13.62	0.3201
77	2831	4.62	63.01	12.95	0.3770
78	2806	4.38	40.60	14.85	0.2641
79	2892	7.15	65.35	14.09	0.6585
80	2873	3.73	55.82	13.49	0.2809
81	2835	4.47	61.02	14.11	0.3849
82	2811	4.17	55.16	15.68	0.3607
83	2847	7.51	55.31	13.83	0.5745
84	2820	4.22	60.44	14.44	0.3684
85	2858	4.49	61.65	13.33	0.3691
86	2868	8.48	60.49	14.08	0.7225
87	2875	4.27	56.03	12.76	0.3053
88	2833	8.19	62.68	12.06	0.6192
89	2887	4.36	69.48	12.28	0.3719

90	2879	4.48	63.04	11.71	0.3306
91	2834	4.48	61.75	14.12	0.3907
92	2836	4.37	59.92	15.09	0.3950
93	2832	8.76	59.79	15.29	0.8007
94	2897	4.28	64.38	14.12	0.3891
95	2854	7.46	57.73	14.38	0.6192
96	2859	8.85	61.05	14.28	0.7717
97	2871	4.2	48.85	14.41	0.2957
98	2870	4.48	78.89	15.63	0.5524
99	2804	7.76	48.34	14.75	0.5533
100	2826	7.43	57.28	14.86	0.6323

Date: 06.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 26/206**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2502	4.23	52.36	14.94	0.3308
2	2547	4.1	52.92	14.40	0.3124
3	2543	4.28	46.78	13.98	0.2799
4	2516	7.54	46.53	15.60	0.5474
5	2511	3.36	61.68	16.10	0.3336
6	2508	7.01	61.67	14.71	0.6358
7	2564	7.25	57.84	14.25	0.5974
8	2582	7.26	59.94	11.49	0.5002
9	2552	6.83	62.93	13.59	0.5840
10	2581	4.28	61.12	12.14	0.3176
11	2513	8.17	61.22	16.50	0.8252
12	2510	7.24	51.72	15.37	0.5756
13	2522	6.98	50.37	15.78	0.5549
14	2573	4.2	48.02	12.70	0.2562
15	2574	8.64	50.62	14.34	0.6273
16	2514	7.02	46.89	13.93	0.4584
17	2507	6.39	56.46	16.91	0.6102
18	2530	6.94	59.54	13.67	0.5649
19	2523	7.09	58.08	13.89	0.5722
20	2531	7.22	57.05	14.18	0.5841
21	2587	8.42	61.26	12.39	0.6391
22	2521	3.72	56.10	13.76	0.2872
23	2538	7.51	53.10	12.18	0.4859
24	2535	6.98	58.07	12.57	0.5095
25	2586	4.4	55.30	13.27	0.3230
26	2572	7.05	58.71	13.00	0.5379
27	2570	4.2	56.16	14.65	0.3457
28	2590	4.26	57.13	12.85	0.3127
29	2565	7.04	58.92	13.78	0.5716
30	2555	4.37	59.50	13.71	0.3566
31	2533	7.34	53.20	12.97	0.5065
32	2591	4.17	57.70	12.95	0.3115
33	2588	7.05	56.74	13.64	0.5457
34	2575	4.49	55.48	11.48	0.2860
35	2589	7.3	49.47	13.69	0.4942
36	2529	4.18	60.62	13.25	0.3357
37	2561	4.29	50.31	14.05	0.3033
38	2567	8.76	52.80	13.47	0.6228
39	2569	4.35	53.48	13.74	0.3197
40	2554	4.39	58.94	13.22	0.3420
41	2551	4.16	58.18	14.80	0.3582
42	2549	8.62	57.94	12.58	0.6284

43	2520	4.19	60.18	12.98	0.3272
44	2524	4.54	54.40	13.33	0.3292
45	2593	4.37	58.16	13.81	0.3509
46	2505	4.19	56.68	14.15	0.3360
47	2546	4.37	48.06	14.52	0.3050
48	2580	4.28	59.76	14.51	0.3711
49	2578	4.38	56.48	13.37	0.3307
50	2594	6.82	59.76	14.56	0.5933
51	2504	7.03	55.88	13.80	0.5420
52	2566	7.1	46.19	14.59	0.4785
53	2550	7.27	56.05	14.77	0.6020
54	2571	4.25	48.40	14.17	0.2916
55	2506	4.27	47.73	14.00	0.2852
56	2584	4.36	58.29	12.16	0.3091
57	2579	7.06	61.24	14.06	0.6079
58	2519	6.75	47.61	14.14	0.4543
59	2509	8.13	58.42	15.11	0.7179
60	2536	4.23	52.40	14.43	0.3198
61	2559	4.23	46.59	13.33	0.2627
62	2548	4.06	50.82	13.28	0.2740
63	2560	3.94	45.29	13.29	0.2372
64	2556	3.39	54.97	14.61	0.2722
65	2562	7.06	58.41	14.95	0.6163
66	2515	7.53	46.72	13.61	0.4789
67	2532	4.28	55.92	13.95	0.3338
68	2558	4.23	51.96	13.91	0.3058
69	2563	3.97	52.39	13.28	0.2763
70	2568	4.32	53.00	13.58	0.3110
71	2598	8.59	62.04	11.61	0.6185
72	2526	7.22	58.83	14.62	0.6209
73	2528	7.25	60.39	13.26	0.5807
74	2539	4.14	58.69	14.24	0.3461
75	2592	4.33	63.06	13.61	0.3715
76	2577	4.26	64.44	11.03	0.3029
77	2597	4.26	66.66	10.14	0.2880
78	2545	4.22	58.90	13.14	0.3266
79	2553	4.39	64.44	12.38	0.3503
80	2585	8.7	63.76	11.86	0.6577
81	2595	4.28	63.38	13.41	0.3638
82	2501	8.33	55.90	14.78	0.6881
83	2596	7.35	63.49	12.65	0.5902
84	2599	4.15	62.28	11.98	0.3096
85	2512	4.28	68.91	14.16	0.4177
86	2540	4.23	56.18	13.87	0.3295
87	2503	7.2	57.90	12.59	0.5249
88	2518	7.3	48.46	14.26	0.5044
89	2537	7.25	54.64	13.62	0.5394

90	2557	4.03	58.27	14.76	0.3466
91	2542	7.49	60.06	12.25	0.5513
92	2600	4.32	60.43	12.20	0.3184
93	2541	4.91	61.29	13.46	0.4051
94	2544	4.23	56.64	12.32	0.2953
95	2583	4.14	65.24	12.97	0.3502
96	2576	4.48	63.26	11.95	0.3387
97	2525	4.28	65.29	12.85	0.3591
98	2517	3.69	45.09	14.48	0.2410
99	2534	4.3	61.39	13.10	0.3457
100	2527	7.56	57.15	13.63	0.5889

Date: 03.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 09/43**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	878	8.42	50.52	14.29	0.6079
2	872	8.66	48.81	13.56	0.5733
3	880	7.19	56.56	12.82	0.5213
4	802	7.11	58.85	14.68	0.6143
5	886	4.06	52.51	13.35	0.2846
6	898	7.52	43.63	15.36	0.5038
7	864	4.26	59.15	13.83	0.3485
8	828	7.3	41.67	14.42	0.4387
9	896	3.65	39.62	14.26	0.2062
10	888	4.23	52.95	12.28	0.2750
11	879	8.3	43.24	13.83	0.4963
12	873	7.25	56.68	13.76	0.5655
13	863	8.48	61.84	14.21	0.7454
14	820	6.98	62.07	13.55	0.5870
15	885	4.11	32.77	13.67	0.1841
16	844	4.24	59.29	15.47	0.3888
17	882	7.07	63.92	13.89	0.6278
18	860	7.24	59.02	13.08	0.5589
19	804	4.53	61.11	14.01	0.3878
20	865	7.47	61.80	11.70	0.5401
21	846	7.01	56.06	14.73	0.5790
22	890	7.06	46.20	15.09	0.4921
23	814	7.03	57.72	13.31	0.5399
24	815	6.98	62.32	12.34	0.5368
25	817	6.99	59.83	13.15	0.5501
26	862	3.6	58.79	13.17	0.2786
27	803	5.92	61.08	13.62	0.4925
28	876	4.55	56.70	13.28	0.3426
29	893	8.77	58.77	13.61	0.7016
30	852	7.34	62.73	13.36	0.6151
31	854	7.31	56.12	12.08	0.4956
32	819	4.38	67.97	12.43	0.3701
33	891	8.75	46.29	13.42	0.5434
34	838	4.46	45.48	13.76	0.2792
35	853	4.48	61.67	13.95	0.3853
36	826	7.36	52.83	13.95	0.5424
37	881	7.45	61.77	13.58	0.6251
38	841	3.33	52.47	14.73	0.2574
39	824	7.33	43.43	13.77	0.4383
40	813	4.44	57.47	12.70	0.3241
41	827	7.35	46.57	16.66	0.5704
42	875	7.05	48.86	14.37	0.4949

43	877	6.83	46.60	16.16	0.5143
44	836	8.55	42.76	14.76	0.5395
45	830	7.71	46.54	16.39	0.5883
46	874	4.25	56.35	13.70	0.3281
47	895	3.89	55.10	14.46	0.3100
48	883	4.13	60.00	14.28	0.3539
49	858	4.11	56.39	14.81	0.3432
50	833	7.54	46.62	14.14	0.4969
51	851	7.93	44.99	14.29	0.5099
52	822	8.26	66.79	12.83	0.7079
53	871	4.42	45.21	14.93	0.2984
54	892	4.23	48.74	12.76	0.2631
55	866	8.7	41.67	11.95	0.4333
56	808	6.78	57.55	14.40	0.5621
57	837	7.44	52.96	12.27	0.4836
58	894	3.88	56.80	12.48	0.2751
59	884	8.6	53.37	13.81	0.6338
60	889	7.16	45.59	14.08	0.4597
61	845	7.23	62.32	13.13	0.5914
62	856	6.73	59.20	14.78	0.5889
63	832	4.23	60.47	13.58	0.3473
64	831	4.8	61.04	12.84	0.3763
65	818	7.17	65.51	13.31	0.6252
66	861	4.23	54.16	16.27	0.3727
67	821	4.23	61.50	13.50	0.3511
68	840	4.26	52.79	14.81	0.3331
69	801	4.08	57.17	13.77	0.3211
70	805	4.27	60.48	13.62	0.3518
71	812	7.28	57.57	13.17	0.5518
72	816	7.18	61.43	13.15	0.5801
73	829	7.47	51.71	14.29	0.5520
74	843	4.15	56.01	13.68	0.3179
75	897	6.95	49.75	15.04	0.5199
76	806	8.6	63.37	13.93	0.7594
77	868	6.98	43.83	16.66	0.5095
78	887	3.81	52.98	13.55	0.2736
79	867	4.15	45.09	15.10	0.2826
80	834	4.28	41.50	15.33	0.2722
81	807	4.44	41.05	15.81	0.2882
82	859	7.01	60.00	13.02	0.5475
83	850	8.37	53.00	14.21	0.6303
84	823	8.06	70.78	11.64	0.6641
85	857	6.88	54.82	13.97	0.5270
86	847	6.59	56.27	13.56	0.5028
87	809	7.24	53.46	11.69	0.4525
88	849	6.95	47.97	15.30	0.5101
89	835	4.33	49.32	15.06	0.3217

90	810	4.32	53.18	12.64	0.2903
91	811	7.04	60.94	12.62	0.5414
92	870	8.27	45.50	14.73	0.5541
93	855	7.05	53.51	15.10	0.5696
94	848	7.08	52.92	15.55	0.5827
95	899	6.98	49.91	13.93	0.4851
96	825	7.38	46.85	12.93	0.4472
97	842	7.36	58.55	13.17	0.5675
98	839	7.54	47.61	14.32	0.5142
99	869	4.15	36.65	14.16	0.2154
100	900	7.46	52.44	13.31	0.5207

Date: 02.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 25/159**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2415	4.92	52.13	14.08	0.3611
2	2436	6.76	36.70	14.63	0.3630
3	2473	7.39	50.80	13.78	0.5173
4	2477	7.81	48.54	14.09	0.5342
5	2500	6.98	54.20	16.57	0.6268
6	2421	8.66	52.24	13.69	0.6192
7	2479	4.31	52.20	13.35	0.3004
8	2438	8.24	45.86	15.00	0.5669
9	2427	6.98	61.27	15.00	0.6415
10	2463	4.19	71.34	13.43	0.4014
11	2495	4.38	48.56	14.33	0.3048
12	2487	6.99	57.81	14.65	0.5921
13	2406	4.69	57.43	15.76	0.4244
14	2498	4.17	57.27	13.81	0.3298
15	2480	7.5	50.72	14.75	0.5610
16	2437	6.99	63.86	13.09	0.5844
17	2440	7.22	54.50	13.76	0.5415
18	2428	7.55	59.12	14.24	0.6357
19	2401	7.72	52.61	15.76	0.6400
20	2405	7.98	58.24	14.66	0.6815
21	2450	4.15	50.57	16.63	0.3490
22	2475	8.26	55.18	12.98	0.5914
23	2416	4.53	61.36	13.54	0.3764
24	2414	7.82	56.92	14.53	0.6467
25	2407	7.58	52.30	13.25	0.5253
26	2472	4.29	51.38	14.69	0.3239
27	2490	8.12	57.60	13.68	0.6399
28	2446	7.23	47.56	14.13	0.4859
29	2448	7.05	52.22	14.09	0.5189
30	2476	8.98	46.93	13.40	0.5648
31	2443	4.21	48.18	14.34	0.2909
32	2484	8.82	44.68	14.15	0.5574
33	2488	7.19	56.83	12.49	0.5105
34	2471	4.07	45.13	14.36	0.2637
35	2424	7.64	51.15	13.78	0.5386
36	2459	4.14	64.21	13.18	0.3502
37	2482	7.09	54.76	13.66	0.5303
38	2499	4.24	50.11	15.67	0.3328
39	2489	7.09	61.90	14.52	0.6374
40	2464	3.59	70.56	12.85	0.3256
41	2418	7.94	62.36	13.79	0.6828
42	2429	9.27	60.52	13.02	0.7305

43	2433	4.25	58.04	13.37	0.3298
44	2455	6.74	48.64	13.75	0.4509
45	2493	7.03	58.88	12.57	0.5202
46	2478	7.2	56.39	13.25	0.5378
47	2467	8.92	50.15	13.22	0.5914
48	2458	7.34	59.42	13.72	0.5982
49	2409	4.5	60.49	14.47	0.3937
50	2456	4.25	57.76	14.56	0.3574
51	2444	4.14	52.36	14.17	0.3072
52	2457	4.29	56.68	14.66	0.3565
53	2461	8.5	46.29	17.50	0.6885
54	2470	7.23	48.73	14.39	0.5068
55	2449	4.5	61.46	12.94	0.3578
56	2483	7.11	55.48	13.50	0.5325
57	2434	4.34	51.02	13.21	0.2925
58	2423	7.73	59.81	12.91	0.5968
59	2426	7.56	60.44	14.36	0.6562
60	2486	7.5	56.36	12.51	0.5287
61	2404	7.16	54.90	13.88	0.5456
62	2413	4.82	54.75	14.98	0.3952
63	2435	7.31	48.31	15.11	0.5336
64	2411	4.69	56.03	14.10	0.3705
65	2468	7.81	34.64	14.95	0.4046
66	2466	7.24	47.97	14.28	0.4959
67	2431	4.01	59.74	11.25	0.2695
68	2432	3.93	35.54	16.26	0.2272
69	2430	4.72	54.96	13.52	0.3507
70	2425	8.85	57.79	13.98	0.7151
71	2469	8.98	44.31	14.62	0.5819
72	2419	7.92	56.04	14.08	0.6249
73	2447	4.48	56.66	13.57	0.3445
74	2445	8.98	48.24	14.82	0.6421
75	2481	7.95	47.65	13.77	0.5215
76	2494	4.22	62.42	12.74	0.3355
77	2465	7.56	41.98	13.10	0.4158
78	2402	7.98	52.91	14.27	0.6025
79	2453	4.23	57.46	10.34	0.2513
80	2408	8.03	51.32	14.03	0.5782
81	2441	3.9	46.64	14.34	0.2609
82	2403	9.58	57.90	14.61	0.8105
83	2496	6.96	50.74	17.24	0.6090
84	2417	9.54	55.19	15.04	0.7918
85	2420	3.6	55.24	16.08	0.3197
86	2492	7.03	61.36	11.46	0.4942
87	2422	8.61	50.69	14.86	0.6483
88	2451	8.94	56.18	12.82	0.6437
89	2474	4.71	51.42	14.06	0.3405

90	2410	8.61	50.90	15.05	0.6595
91	2452	8.83	60.24	13.25	0.7046
92	2497	6.78	50.33	14.72	0.5024
93	2454	6.95	51.59	14.42	0.5171
94	2442	4.17	48.95	14.71	0.3002
95	2460	4.55	59.04	13.67	0.3672
96	2485	7.49	57.75	12.71	0.5498
97	2491	4.21	59.16	11.44	0.2850
98	2412	4.76	56.00	14.66	0.3908
99	2439	8.94	53.62	12.35	0.5918
100	2462	4.51	64.40	12.47	0.3622

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 33/278

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3274	4.3	54.01	13.48	0.3130
2	3240	4.62	48.35	13.20	0.2948
3	3268	4.56	56.92	14.23	0.3694
4	3298	4.36	50.17	13.85	0.3030
5	3284	4.15	49.25	16.06	0.3283
6	3206	4.07	62.57	14.67	0.3736
7	3287	4.5	47.34	15.78	0.3361
8	3260	4.35	53.14	15.26	0.3528
9	3255	8.75	46.29	14.60	0.5915
10	3235	4.45	57.16	14.36	0.3653
11	3261	4.43	63.25	13.26	0.3717
12	3283	7.98	45.52	14.72	0.5347
13	3253	7.13	42.41	15.42	0.4663
14	3204	4.12	62.17	11.73	0.3003
15	3239	4.57	52.26	13.76	0.3286
16	3237	9.64	68.34	10.76	0.7085
17	3276	4.18	46.05	15.29	0.2943
18	3282	7.49	49.61	14.86	0.5520
19	3271	7.59	49.22	14.71	0.5495
20	3221	8.39	58.87	13.28	0.6561
21	3288	7.44	56.69	13.58	0.5729
22	3205	3.79	58.01	14.77	0.3248
23	3214	4.12	47.56	14.49	0.2839
24	3278	4.16	60.53	13.33	0.3357
25	3202	7.07	63.45	12.03	0.5394
26	3280	4.47	51.66	14.96	0.3455
27	3251	4.62	55.06	8.57	0.2181
28	3269	4.12	51.35	13.81	0.2921
29	3245	4.47	52.14	14.00	0.3263
30	3244	7.79	53.17	14.61	0.6053
31	3248	4.58	48.71	11.76	0.2624
32	3270	4.26	47.44	14.00	0.2829
33	3247	4.18	40.43	13.93	0.2353
34	3291	4.38	48.69	15.01	0.3202
35	3286	4.61	52.14	14.31	0.3439
36	3220	4.33	57.25	13.87	0.3438

37	3294	4.3	50.12	15.64	0.3371
38	3217	7.47	59.34	14.37	0.6372
39	3230	4.37	55.99	13.22	0.3234
40	3215	4.25	62.77	13.45	0.3587
41	3246	4.38	57.01	14.30	0.3570
42	3236	4.39	55.47	13.70	0.3336
43	3256	4.26	47.97	14.30	0.2922
44	3285	7.45	52.45	15.77	0.6161
45	3300	7.46	52.06	15.77	0.6125
46	3233	4.57	56.52	14.08	0.3638
47	3296	7.71	56.23	12.52	0.5428
48	3219	4.29	58.80	15.61	0.3938
49	3254	4.27	49.15	14.51	0.3045
50	3201	8.86	63.98	12.41	0.7035
51	3249	4.11	52.87	13.13	0.2852
52	3224	4.92	55.27	13.79	0.3749
53	3299	4.42	55.15	15.47	0.3770
54	3231	4.35	63.38	13.32	0.3671
55	3266	4.41	63.04	12.48	0.3471
56	3275	4.27	56.50	13.40	0.3232
57	3281	4.35	45.95	16.13	0.3223
58	3229	4.59	59.07	12.87	0.3488
59	3279	7.31	53.49	15.37	0.6009
60	3289	7.65	57.77	14.06	0.6212
61	3264	4.09	55.47	14.31	0.3247
62	3228	4.38	57.60	13.99	0.3530
63	3203	4.48	59.32	13.91	0.3696
64	3227	4.57	50.27	14.66	0.3368
65	3257	3.91	59.02	11.69	0.2698
66	3232	4.39	60.64	14.28	0.3802
67	3259	4.54	51.87	11.12	0.2620
68	3277	7.07	56.16	14.03	0.5571
69	3262	4.38	57.93	12.84	0.3259
70	3222	4.19	56.90	13.85	0.3302
71	3241	7.74	54.13	14.91	0.6246
72	3213	8.39	47.32	14.37	0.5705
73	3207	7.17	65.16	12.71	0.5937
74	3234	4.52	63.62	13.39	0.3851
75	3292	7.53	54.90	14.63	0.6047
76	3225	4.31	51.19	14.87	0.3280
77	3242	7.14	63.50	13.26	0.6012
78	3265	4.37	55.21	14.13	0.3409
79	3258	4.27	54.10	14.18	0.3275
80	3290	7.51	45.55	14.49	0.4957
81	3223	4.25	59.49	16.07	0.4063
82	3209	4.19	48.22	15.68	0.3168
83	3295	4.33	53.09	14.94	0.3434
84	3273	4.03	58.02	13.24	0.3095
85	3208	4.61	52.12	14.14	0.3398
86	3216	3.98	60.11	15.16	0.3626

87	3252	8.61	61.45	11.33	0.5993
88	3267	7.06	51.97	14.80	0.5429
89	3250	8.93	40.03	16.44	0.5876
90	3210	4.12	44.91	16.97	0.3139
91	3218	4.33	64.70	15.49	0.4339
92	3263	4.2	60.28	14.40	0.3646
93	3293	7.5	49.17	16.29	0.6007
94	3212	4.25	55.34	14.87	0.3498
95	3243	4.39	51.16	16.16	0.3631
96	3272	3.77	46.92	14.13	0.2500
97	3211	4.46	52.49	13.45	0.3149
98	3238	8.05	55.83	13.77	0.6190
99	3297	7.91	53.98	14.01	0.5980
100	3226	4.27	55.18	13.30	0.3134

Date: 01.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 36/281**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3573	7.17	57.08	14.23	0.5822
2	3572	4.77	59.23	13.96	0.3945
3	3595	4.42	51.07	14.02	0.3165
4	3510	4.42	49.24	14.97	0.3258
5	3504	4.32	49.40	12.45	0.2657
6	3577	8.66	55.44	14.07	0.6755
7	3586	8.78	46.19	16.26	0.6594
8	3568	4.51	54.47	14.32	0.3518
9	3590	4.31	62.41	13.49	0.3629
10	3527	4.58	55.84	12.23	0.3128
11	3505	7.24	52.48	14.41	0.5473
12	3503	7.28	57.09	13.22	0.5496
13	3600	3.79	57.42	15.29	0.3328
14	3583	6.98	54.46	14.52	0.5521
15	3598	8.53	57.46	16.06	0.7873
16	3524	2.22	61.86	9.78	0.1343
17	3523	4.24	64.04	13.87	0.3765
18	3564	3.61	46.90	16.67	0.2823
19	3533	4.24	43.38	16.78	0.3087
20	3578	4.15	55.59	16.17	0.3731
21	3528	4.73	62.12	11.88	0.3491
22	3546	4.3	61.47	13.63	0.3603
23	3554	4.4	46.79	14.06	0.2895
24	3588	4.35	64.83	12.97	0.3658
25	3520	3.99	61.79	12.43	0.3064
26	3549	3.6	52.04	14.74	0.2761
27	3575	4.19	51.55	15.00	0.3239
28	3547	4.18	46.03	15.08	0.2901
29	3581	6.93	56.76	14.43	0.5676
30	3550	4.49	53.95	14.57	0.3529
31	3537	7.72	49.84	13.68	0.5265
32	3556	3.6	60.11	13.41	0.2902
33	3565	4.53	57.64	11.99	0.3130
34	3592	8.43	61.32	14.64	0.7570
35	3563	3.74	50.56	14.79	0.2798
36	3576	4.29	56.23	16.09	0.3882
37	3529	4.83	62.46	11.30	0.3410
38	3512	4.49	49.34	14.05	0.3112
39	3507	7.69	57.01	14.86	0.6513
40	3555	4.51	49.64	13.52	0.3026
41	3560	4.58	52.22	14.23	0.3403
42	3597	7.44	55.71	13.41	0.5558

43	3531	4.42	44.40	14.37	0.2820
44	3584	8.77	45.63	14.81	0.5929
45	3567	4.4	67.59	12.96	0.3854
46	3557	7.45	45.52	12.26	0.4157
47	3530	9.13	50.79	12.66	0.5871
48	3509	7.48	50.44	14.20	0.5356
49	3551	4.22	56.88	14.15	0.3397
50	3553	4.4	62.17	12.82	0.3507
51	3532	4.21	47.58	12.48	0.2501
52	3591	8.43	51.33	14.83	0.6415
53	3569	3.77	42.42	14.78	0.2364
54	3511	7.37	52.92	14.51	0.5660
55	3570	4.13	45.11	15.61	0.2908
56	3515	4.23	53.23	14.43	0.3249
57	3545	7.15	47.30	15.75	0.5327
58	3534	7.36	48.70	13.49	0.4836
59	3519	3.55	55.93	13.39	0.2659
60	3536	4.4	51.64	14.41	0.3274
61	3525	4.66	48.46	13.31	0.3006
62	3517	4.2	47.69	14.89	0.2982
63	3566	4.49	69.34	12.66	0.3942
64	3522	7.38	66.06	14.02	0.6834
65	3541	4.68	50.94	14.64	0.3491
66	3526	4.5	57.40	12.42	0.3209
67	3580	8.61	44.01	16.00	0.6061
68	3501	7.41	45.51	14.79	0.4987
69	3502	4.06	57.25	14.01	0.3256
70	3539	4.4	52.12	14.49	0.3322
71	3559	4.48	52.69	13.82	0.3261
72	3574	7.25	49.73	16.57	0.5974
73	3562	7.58	47.67	14.31	0.5170
74	3596	4.59	50.34	13.53	0.3126
75	3579	8.7	50.32	14.57	0.6377
76	3571	4.88	43.33	17.59	0.3719
77	3535	4.43	56.30	14.00	0.3491
78	3540	4.09	50.28	15.31	0.3149
79	3585	4.31	54.70	14.39	0.3392
80	3516	6.63	50.00	13.96	0.4628
81	3542	3.56	49.36	16.69	0.2933
82	3593	8.28	62.55	10.33	0.5349
83	3558	7.29	54.01	13.40	0.5278
84	3552	3.44	62.15	14.18	0.3031
85	3594	4.74	58.05	15.18	0.4176
86	3544	7.27	47.96	16.22	0.5656
87	3508	3.95	58.24	13.38	0.3077
88	3589	8.06	60.65	13.83	0.6762
89	3543	3.96	50.33	14.15	0.2820

90	3514	4.15	49.49	12.87	0.2644
91	3538	8.83	50.22	14.52	0.6437
92	3561	7.66	45.91	13.64	0.4795
93	3587	4.38	61.32	13.52	0.3631
94	3518	4.16	55.02	13.12	0.3004
95	3506	4.56	47.44	14.99	0.3242
96	3599	9.07	48.22	14.83	0.6485
97	3582	7.22	46.95	15.29	0.5184
98	3548	4.85	46.68	16.28	0.3686
99	3513	3.86	39.47	14.52	0.2212
100	3521	6.55	58.28	14.60	0.5574

Date: 29.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 11/45**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1016	7.45	57.07	14.46	0.6146
2	1065	4.1	57.06	13.69	0.3202
3	1006	7.22	58.60	14.97	0.6332
4	1085	6.93	61.87	14.92	0.6396
5	1070	4.33	57.02	15.28	0.3771
6	1061	7.25	60.67	14.42	0.6344
7	1039	7.61	55.83	13.86	0.5890
8	1035	7.48	60.21	14.07	0.6336
9	1034	7.44	48.15	14.43	0.5171
10	1080	6.21	48.17	15.86	0.4744
11	1083	4.26	59.83	14.06	0.3583
12	1052	3.88	48.76	13.41	0.2538
13	1004	7.63	56.11	14.28	0.6112
14	1086	3.51	61.91	14.52	0.3155
15	1018	7.82	57.18	14.97	0.6694
16	1097	4.44	62.69	13.26	0.3690
17	1074	5.71	58.59	14.76	0.4939
18	1008	7.7	57.43	14.97	0.6622
19	1072	4.05	54.32	13.25	0.2916
20	1038	7.47	54.91	14.24	0.5842
21	1049	7.5	53.03	14.56	0.5790
22	1066	4.09	53.28	13.49	0.2941
23	1027	8.09	59.70	11.47	0.5542
24	1044	7.43	55.79	13.62	0.5647
25	1047	7.41	53.35	14.88	0.5884
26	1078	4.38	56.08	14.51	0.3565
27	1001	8.32	56.50	11.70	0.5500
28	1036	7.48	52.26	14.37	0.5617
29	1013	7.41	49.10	15.34	0.5580
30	1020	7.65	51.29	14.47	0.5676
31	1056	4.23	49.36	14.38	0.3003
32	1045	7.27	55.30	15.57	0.6259
33	1088	4.07	57.31	12.98	0.3028
34	1012	7.52	49.20	13.86	0.5129
35	1069	4.22	56.46	13.39	0.3190
36	1024	7.27	53.92	14.35	0.5627
37	1014	7.68	58.22	13.71	0.6129
38	1090	4.27	55.48	13.88	0.3288
39	1077	4	52.79	15.50	0.3272
40	1096	7.08	57.38	14.57	0.5919
41	1082	3.48	51.80	15.21	0.2742
42	1005	8.01	55.10	14.34	0.6328

43	1089	6.67	56.66	13.96	0.5276
44	1100	4.25	60.82	14.02	0.3625
45	1076	4.13	59.27	13.85	0.3391
46	1037	3.87	52.76	12.62	0.2577
47	1010	7.54	50.43	14.59	0.5549
48	1068	4.17	54.03	13.51	0.3044
49	1019	7.69	44.33	15.29	0.5214
50	1025	7.81	55.12	14.13	0.6084
51	1055	3.56	48.70	14.13	0.2449
52	1051	4.22	43.61	13.07	0.2405
53	1030	7.39	51.06	13.89	0.5240
54	1098	4.1	65.75	12.58	0.3391
55	1081	7.06	44.38	12.71	0.3982
56	1059	4.17	58.05	10.51	0.2544
57	1022	7.61	56.40	12.96	0.5563
58	1099	7.08	65.86	12.98	0.6053
59	1095	4.3	55.41	13.46	0.3208
60	1048	7.5	58.48	14.24	0.6248
61	1043	7.74	58.14	13.57	0.6107
62	1094	7.08	53.73	14.39	0.5473
63	1091	4.18	60.17	14.58	0.3666
64	1073	4.2	58.68	15.87	0.3910
65	1087	4.35	60.46	13.73	0.3610
66	1011	9.41	50.32	13.95	0.6606
67	1060	8.67	55.37	15.10	0.7248
68	1058	8.38	52.84	13.80	0.6109
69	1040	8.51	50.84	14.61	0.6323
70	1054	8.23	45.09	15.61	0.5794
71	1023	8.5	51.18	14.79	0.6434
72	1071	7.09	54.56	15.98	0.6182
73	1064	8.5	51.90	14.76	0.6511
74	1093	8.06	48.62	13.76	0.5392
75	1033	7.46	44.71	14.05	0.4685
76	1021	7.6	55.05	12.53	0.5244
77	1003	7.21	54.62	13.58	0.5350
78	1053	3.99	59.60	13.96	0.3320
79	1067	4.17	59.00	13.97	0.3436
80	1063	4.21	64.48	13.07	0.3549
81	1015	7.38	56.33	12.46	0.5181
82	1050	4.44	53.04	14.91	0.3512
83	1017	7.75	60.60	13.99	0.6572
84	1032	7.41	54.80	15.26	0.6195
85	1041	4.98	59.94	12.18	0.3635
86	1042	7.44	62.63	14.69	0.6845
87	1092	4.04	62.52	14.06	0.3551
88	1029	7.42	58.50	13.81	0.5995
89	1046	7.73	57.18	14.31	0.6323

90	1026	7.43	59.80	14.68	0.6524
91	1002	7.64	59.07	12.92	0.5829
92	1062	4.1	61.57	13.32	0.3362
93	1031	7.96	53.38	14.54	0.6177
94	1057	7.02	60.51	14.21	0.6037
95	1028	7.34	55.15	14.29	0.5784
96	1009	7.26	62.16	13.37	0.6033
97	1079	3.35	53.80	13.57	0.2445
98	1075	7.15	57.38	14.20	0.5827
99	1007	7.5	51.94	14.29	0.5565
100	1084	4.51	61.65	13.97	0.3883

Date: 28.07.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 05/16**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	461	7.82	67.08	13.57	0.7116
2	433	4.41	52.95	13.41	0.3131
3	466	9.16	48.79	12.99	0.5807
4	463	7.22	54.44	12.49	0.4910
5	455	7.59	53.31	12.68	0.5131
6	451	7.6	57.78	13.90	0.6103
7	462	7.37	63.69	12.45	0.5844
8	465	3.77	47.34	14.49	0.2586
9	500	8.64	53.37	13.55	0.6247
10	477	7.53	57.89	12.78	0.5572
11	415	7.49	47.87	14.66	0.5258
12	468	7.72	37.51	15.78	0.4570
13	473	4.43	42.40	14.01	0.2631
14	410	4.25	54.25	14.12	0.3256
15	409	8.64	50.35	12.63	0.5495
16	441	9.12	58.66	13.69	0.7323
17	422	4.76	52.62	13.07	0.3275
18	403	8.76	59.73	13.59	0.7113
19	420	4.5	56.97	13.55	0.3474
20	408	6.98	54.17	13.72	0.5186
21	406	4.37	53.68	12.70	0.2980
22	453	4.46	50.68	13.00	0.2939
23	491	9.02	57.55	11.17	0.5800
24	414	8.86	57.10	14.08	0.7123
25	497	9.34	57.55	12.70	0.6828
26	436	4.37	45.35	13.32	0.2639
27	427	4.42	56.56	13.10	0.3275
28	483	8.47	53.24	13.96	0.6293
29	428	7.6	55.57	14.32	0.6050
30	446	7.18	49.41	15.32	0.5435
31	499	7.5	58.06	13.50	0.5880
32	467	4.31	48.35	13.98	0.2914
33	479	5.57	52.13	12.66	0.3676
34	423	9.17	46.56	14.67	0.6263
35	478	7.53	58.78	14.55	0.6438
36	485	8.53	43.86	13.95	0.5220
37	458	9.07	57.60	13.54	0.7075
38	476	4.26	55.67	12.09	0.2867
39	495	8.8	54.46	13.17	0.6310
40	493	7.48	48.55	12.42	0.4510
41	432	7.83	50.40	12.62	0.4980
42	450	4.83	56.91	13.92	0.3825

43	454	4.47	52.12	13.22	0.3080
44	413	7.7	54.73	13.70	0.5775
45	464	7.52	50.76	13.63	0.5204
46	482	4.7	59.55	13.25	0.3708
47	442	4.42	54.28	14.61	0.3505
48	402	7.16	42.96	14.76	0.4539
49	429	4.42	54.37	14.79	0.3554
50	498	8.66	47.54	14.28	0.5880
51	416	4.48	56.61	15.07	0.3821
52	437	7.34	54.14	14.19	0.5637
53	459	4.43	62.05	13.28	0.3650
54	460	4.45	60.90	12.81	0.3471
55	418	7.52	42.82	16.86	0.5429
56	444	4.48	55.86	13.64	0.3414
57	486	4.47	60.34	12.10	0.3263
58	431	7.68	55.43	13.39	0.5699
59	494	2.71	53.01	14.28	0.2051
60	490	7.56	60.93	11.60	0.5345
61	405	7.05	52.48	13.45	0.4977
62	470	7.44	48.89	13.95	0.5074
63	448	6.98	52.59	14.41	0.5291
64	443	8.53	53.91	14.78	0.6798
65	445	4.89	54.46	14.03	0.3736
66	484	8.55	53.79	14.48	0.6660
67	425	4.61	51.85	13.37	0.3195
68	471	9.19	49.94	13.98	0.6415
69	412	7.66	56.87	13.40	0.5837
70	417	7.21	55.54	15.48	0.6201
71	404	4.31	57.34	14.88	0.3676
72	401	8.73	41.36	15.76	0.5692
73	456	4.56	50.67	14.55	0.3361
74	439	4.25	57.07	13.12	0.3183
75	469	3.57	51.07	14.92	0.2720
76	447	7.12	44.90	15.17	0.4849
77	411	4.44	52.43	12.78	0.2975
78	487	3.61	55.92	12.54	0.2531
79	457	4.33	57.96	12.34	0.3096
80	492	8.72	54.17	14.14	0.6680
81	426	4.79	48.01	13.46	0.3094
82	475	6.91	41.57	14.67	0.4215
83	407	7.13	50.94	13.17	0.4784
84	419	9	42.97	16.55	0.6399
85	488	8.97	54.61	13.51	0.6620
86	424	7.51	44.23	14.04	0.4664
87	489	8.57	51.02	13.39	0.5853
88	438	4.59	56.66	12.28	0.3195
89	435	4.65	45.87	15.65	0.3339

90	452	7.51	57.04	13.10	0.5610
91	474	8.85	55.20	12.64	0.6177
92	480	9.21	46.81	13.97	0.6023
93	496	8.74	46.53	15.84	0.6441
94	481	8.43	56.39	13.83	0.6575
95	440	8.38	56.02	14.94	0.7014
96	472	7.14	52.50	13.50	0.5062
97	430	8.67	53.75	13.95	0.6503
98	421	4.43	55.09	14.81	0.3615
99	434	4.27	51.52	14.65	0.3224
100	449	7.26	59.07	12.56	0.5387

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 12/46

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1113	3.97	54.76	14.68	0.3192
2	1194	4.76	51.31	14.42	0.3522
3	1116	7.6	59.24	13.42	0.6042
4	1142	8.96	64.44	13.19	0.7616
5	1132	4.62	60.10	12.05	0.3345
6	1185	7.25	59.41	12.66	0.5452
7	1141	4.33	58.97	13.38	0.3416
8	1140	7.52	61.28	12.34	0.5685
9	1139	4.49	54.09	14.14	0.3435
10	1167	4.21	55.24	12.56	0.2922
11	1147	8.28	40.51	16.19	0.5432
12	1198	9.09	53.55	14.62	0.7117
13	1178	8.57	59.13	12.14	0.6153
14	1153	8.88	41.49	15.02	0.5532
15	1150	8.89	51.68	14.20	0.6525
16	1130	8.45	62.45	13.76	0.7259
17	1155	8.44	44.55	15.47	0.5815
18	1168	7.42	48.87	16.72	0.6062
19	1161	8.85	50.94	13.92	0.6275
20	1164	8.55	57.77	15.01	0.7413
21	1125	4.45	53.10	13.03	0.3079
22	1122	4.35	49.98	16.51	0.3589
23	1102	7.05	73.31	13.38	0.6916
24	1158	7.52	48.69	13.21	0.4835
25	1115	7.03	59.26	13.04	0.5434
26	1163	8.32	50.49	15.15	0.6365
27	1176	8.56	55.41	12.33	0.5846
28	1177	7.09	45.12	14.80	0.4736
29	1197	4.61	54.92	14.53	0.3679
30	1112	4.64	57.63	13.31	0.3559
31	1110	7.51	63.89	15.15	0.7270
32	1121	4.25	56.86	14.03	0.3392
33	1154	7.59	42.80	16.54	0.5374

34	1171	4.44	63.23	14.50	0.4071
35	1169	8.58	53.63	13.80	0.6349
36	1200	7.79	58.58	13.59	0.6201
37	1159	8.56	39.71	15.51	0.5273
38	1156	7.38	47.32	13.40	0.4679
39	1101	7.06	66.33	13.28	0.6220
40	1137	4.15	60.89	14.03	0.3544
41	1119	4.32	50.55	14.56	0.3180
42	1105	4.16	59.36	14.47	0.3573
43	1117	4.26	50.84	14.50	0.3140
44	1195	9.5	55.34	13.97	0.7344
45	1107	4.34	52.08	13.71	0.3099
46	1183	8.9	52.35	13.93	0.6488
47	1104	7.5	46.56	13.70	0.4785
48	1108	7.73	54.24	14.40	0.6037
49	1175	4.34	61.88	14.11	0.3789
50	1170	7.43	55.00	13.44	0.5491
51	1162	7.41	54.40	13.38	0.5394
52	1180	8.88	53.66	13.14	0.6260
53	1186	7.57	50.18	13.47	0.5117
54	1188	4.44	59.10	13.77	0.3614
55	1118	8.6	52.48	13.38	0.6037
56	1165	7.28	61.20	13.64	0.6079
57	1152	8.69	52.96	13.46	0.6196
58	1190	9.01	61.94	12.12	0.6767
59	1173	8.39	53.87	12.47	0.5638
60	1160	7.34	48.63	12.91	0.4610
61	1199	8.49	46.12	15.50	0.6070
62	1192	8.85	58.21	13.57	0.6992
63	1187	9.15	56.24	14.08	0.7247
64	1114	4.32	58.12	12.99	0.3262
65	1135	7.41	59.71	13.08	0.5787
66	1182	8.99	49.06	14.84	0.6545
67	1143	8.66	59.22	13.90	0.7127
68	1174	8.7	48.97	13.64	0.5812
69	1193	9.01	51.06	14.81	0.6812
70	1127	7.38	54.62	16.02	0.6458
71	1126	4.32	54.34	15.24	0.3577
72	1123	7.38	59.51	14.99	0.6583
73	1148	8.81	35.49	16.79	0.5251
74	1179	7.44	51.80	14.50	0.5587
75	1138	4.35	58.26	14.32	0.3628
76	1184	8.66	56.48	12.84	0.6278
77	1103	4.22	56.08	11.52	0.2726
78	1120	7.31	48.31	14.18	0.5007
79	1196	4.98	53.75	14.51	0.3884
80	1146	8.66	58.99	13.34	0.6815

81	1144	8.9	55.18	15.02	0.7378
82	1166	4.29	53.25	14.55	0.3325
83	1106	4.44	60.46	13.79	0.3703
84	1131	4.53	65.36	14.43	0.4272
85	1109	7.47	54.40	15.31	0.6223
86	1189	4.25	59.78	15.57	0.3957
87	1145	4.42	59.05	14.61	0.3814
88	1128	4.67	55.35	12.76	0.3297
89	1134	4.69	57.46	12.30	0.3316
90	1129	4.22	58.19	14.81	0.3638
91	1157	8.9	50.58	12.67	0.5705
92	1133	4.57	62.31	12.89	0.3670
93	1181	9.03	54.59	12.97	0.6393
94	1149	8.66	46.41	13.96	0.5612
95	1151	4.6	36.78	17.54	0.2967
96	1124	9.08	55.70	12.85	0.6501
97	1172	9.43	48.28	13.57	0.6177
98	1111	8.84	57.10	13.94	0.7037
99	1191	9.05	58.64	12.64	0.6706
100	1136	4.49	57.00	12.58	0.3219

Date: 27.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 22/156**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2144	7.79	63.21	13.24	0.6520
2	2196	4.46	60.25	13.61	0.3657
3	2170	4.49	64.47	12.21	0.3534
4	2112	8.88	58.65	14.94	0.7779
5	2200	4.41	53.69	13.48	0.3193
6	2146	7.54	59.00	12.66	0.5632
7	2115	9.47	57.11	14.03	0.7585
8	2186	7.77	52.74	14.28	0.5851
9	2180	6.67	52.17	13.76	0.4789
10	2130	4.81	53.47	15.75	0.4050
11	2153	3.46	57.35	13.88	0.2754
12	2142	8.19	61.44	14.47	0.7281
13	2105	4.26	60.22	13.35	0.3425
14	2192	4.35	65.43	15.39	0.4380
15	2197	7.12	53.07	13.77	0.5205
16	2158	6.88	61.26	12.42	0.5236
17	2151	4.26	53.36	13.02	0.2961
18	2169	4.3	55.54	13.09	0.3126
19	2193	4.1	48.46	13.70	0.2722
20	2152	6.69	52.34	13.30	0.4656
21	2184	6.88	56.31	13.78	0.5339
22	2172	4.72	55.62	11.78	0.3092
23	2107	8.88	57.84	12.97	0.6660
24	2198	8.5	61.39	11.32	0.5907
25	2117	7.9	59.51	13.56	0.6375
26	2118	8.93	52.44	14.40	0.6742
27	2191	4.74	63.34	12.82	0.3849
28	2178	4.42	51.35	14.94	0.3390
29	2124	7.2	59.77	13.47	0.5796
30	2140	4.54	60.97	14.70	0.4068
31	2185	4.31	49.04	14.64	0.3095
32	2119	6.36	57.98	13.52	0.4986
33	2108	4.36	64.30	10.95	0.3069
34	2165	8.35	57.53	13.89	0.6672
35	2150	8.11	70.19	14.99	0.8532
36	2189	4.39	67.54	13.67	0.4052
37	2121	8.97	50.07	13.60	0.6109
38	2166	4.38	60.76	12.08	0.3215
39	2182	7.3	63.21	13.80	0.6366
40	2161	4.24	56.26	11.96	0.2854
41	2199	4.23	56.42	14.13	0.3371
42	2179	7.22	55.40	14.19	0.5675

43	2122	7.06	52.43	14.30	0.5295
44	2159	4.24	63.17	12.59	0.3371
45	2111	4.69	49.27	14.49	0.3349
46	2190	7.61	61.45	11.29	0.5281
47	2139	4.64	60.76	13.05	0.3680
48	2137	4.73	64.39	13.03	0.3968
49	2120	4.53	57.35	13.53	0.3515
50	2163	4.1	64.55	13.68	0.3620
51	2101	4.49	61.84	13.39	0.3718
52	2188	4.29	56.29	14.39	0.3475
53	2125	7.74	56.59	14.17	0.6207
54	2176	4.33	49.30	14.08	0.3005
55	2156	3.97	54.60	13.72	0.2974
56	2147	4.39	63.35	14.70	0.4087
57	2136	9.1	54.64	15.63	0.7771
58	2116	8.11	54.93	13.36	0.5953
59	2157	2.49	57.04	14.15	0.2009
60	2113	4.67	55.49	14.07	0.3647
61	2164	4.51	56.58	13.31	0.3396
62	2141	4.68	60.37	14.30	0.4039
63	2128	7.5	50.00	14.82	0.5557
64	2134	7.55	57.29	14.16	0.6123
65	2171	4.29	61.90	14.01	0.3719
66	2109	9.24	43.02	16.95	0.6736
67	2138	4.61	60.98	14.45	0.4061
68	2110	7.5	50.28	14.40	0.5430
69	2131	4.56	53.04	15.63	0.3780
70	2143	4.61	57.91	14.70	0.3923
71	2177	8.75	57.68	13.73	0.6930
72	2149	4.57	61.38	14.03	0.3935
73	2154	4.32	53.30	15.22	0.3504
74	2148	7.82	56.65	14.81	0.6561
75	2102	4.19	61.03	14.86	0.3800
76	2194	3.57	46.23	14.54	0.2399
77	2103	4.55	68.58	14.48	0.4518
78	2127	8.73	57.82	15.20	0.7674
79	2106	4.2	50.20	12.59	0.2654
80	2174	7.39	46.83	16.04	0.5550
81	2145	4.48	49.70	14.73	0.3279
82	2175	4.09	48.44	15.28	0.3027
83	2160	7.12	59.16	12.68	0.5340
84	2162	7.06	61.13	13.27	0.5726
85	2126	4.48	54.00	15.00	0.3629
86	2132	4.64	53.44	14.69	0.3642
87	2181	4.56	59.29	13.80	0.3730
88	2135	7.53	59.73	11.59	0.5211
89	2168	8.74	52.42	13.41	0.6144

90	2114	9.07	57.47	13.78	0.7183
91	2133	4.61	56.82	13.15	0.3444
92	2167	4.29	55.87	12.40	0.2973
93	2173	4.31	55.35	13.32	0.3176
94	2123	7.44	56.84	14.55	0.6153
95	2104	7.52	65.84	13.20	0.6535
96	2183	4.46	53.06	14.76	0.3492
97	2195	4.35	51.60	14.98	0.3363
98	2129	7.57	50.69	13.53	0.5193
99	2187	8.77	56.44	14.81	0.7332
100	2155	7.45	50.18	15.28	0.5714

Date: 26.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 20/154**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1974	4.53	54.74	13.52	0.3352
2	1956	8.31	66.73	13.58	0.7529
3	1999	7.53	64.95	12.98	0.6348
4	1972	7.44	59.38	14.92	0.6592
5	1988	7.33	63.70	13.03	0.6084
6	1916	7.06	61.56	13.55	0.5888
7	1902	3.97	54.38	13.52	0.2918
8	1929	7.49	58.61	14.14	0.6209
9	1951	7.46	70.07	12.99	0.6789
10	1918	4.62	66.45	13.66	0.4195
11	1950	8.48	65.47	12.48	0.6928
12	1942	4.58	67.24	12.64	0.3893
13	1964	4.51	54.17	14.45	0.3531
14	1998	4.56	63.60	14.32	0.4154
15	1977	4.37	59.68	14.54	0.3793
16	1978	6.89	61.30	14.39	0.6077
17	1906	4.02	56.22	13.11	0.2963
18	1989	4.27	67.52	13.11	0.3779
19	1948	7.6	62.61	13.78	0.6559
20	1941	4.35	62.89	13.20	0.3610
21	1963	4.65	50.89	14.97	0.3543
22	2000	4.46	66.40	13.16	0.3898
23	1935	9.24	61.88	12.27	0.7013
24	1969	4.35	65.49	12.25	0.3489
25	1965	4.38	62.49	13.20	0.3614
26	1952	8.41	66.51	14.58	0.8158
27	1908	7.24	60.81	13.90	0.6118
28	1953	7.07	66.00	13.30	0.6207
29	1904	3.56	44.32	14.91	0.2353
30	1947	4.3	61.23	14.14	0.3724
31	1934	8.66	56.79	14.30	0.7032
32	1909	6.37	57.88	15.01	0.5536
33	1961	4.23	65.60	14.59	0.4048
34	1960	7.3	62.60	14.14	0.6461
35	1976	4.4	59.77	12.95	0.3406
36	1985	7.49	58.93	13.76	0.6074
37	1981	4.53	58.58	13.32	0.3533
38	1943	8.92	57.82	14.16	0.7305
39	1921	6.61	61.32	15.35	0.6220
40	1910	6.84	61.94	11.96	0.5068
41	1944	4.59	55.83	14.51	0.3718
42	1940	8.56	62.81	13.98	0.7516

43	1996	7.15	65.82	13.31	0.6263
44	1920	7.02	67.29	13.12	0.6199
45	1911	3.95	62.78	13.19	0.3271
46	1993	4.63	62.07	13.36	0.3838
47	1994	4.32	66.72	13.10	0.3776
48	1923	3.86	66.32	11.72	0.2999
49	1939	4.85	62.79	13.15	0.4006
50	1912	7.06	66.54	12.80	0.6015
51	1903	3.95	57.79	13.50	0.3081
52	1968	4.29	55.80	13.05	0.3123
53	1915	3.52	63.79	12.68	0.2848
54	1954	7.57	66.47	13.09	0.6586
55	1991	7.63	61.04	13.81	0.6432
56	1979	7.19	60.97	13.42	0.5881
57	1970	4.36	58.84	13.55	0.3475
58	1946	4.11	59.91	13.75	0.3387
59	1962	8.57	69.88	14.15	0.8476
60	1932	7.33	54.74	15.11	0.6062
61	1937	8.78	62.14	12.84	0.7006
62	1995	4.59	63.13	13.02	0.3773
63	1957	7.74	64.57	11.97	0.5983
64	1966	4.44	49.61	13.30	0.2930
65	1959	4.29	67.75	11.78	0.3423
66	1913	3.38	58.86	13.22	0.2630
67	1982	4.28	59.44	13.93	0.3544
68	1928	8.33	57.97	13.28	0.6414
69	1973	4.48	61.06	14.97	0.4095
70	1938	7.27	60.64	13.89	0.6121
71	1967	7.31	60.13	13.79	0.6060
72	1936	4.35	57.57	14.17	0.3550
73	1930	4.35	55.74	13.55	0.3284
74	1933	4.54	64.22	12.10	0.3528
75	1927	4.41	56.53	13.51	0.3369
76	1990	4.42	60.24	14.79	0.3938
77	1987	7.46	59.72	14.17	0.6311
78	1958	4.3	62.26	13.56	0.3629
79	1997	4.35	62.44	13.37	0.3632
80	1931	8.48	58.42	14.41	0.7140
81	1992	4.42	60.54	14.24	0.3810
82	1922	3.51	64.60	12.01	0.2724
83	1986	8.91	62.06	13.50	0.7467
84	1905	7.22	59.43	12.87	0.5523
85	1945	8.98	68.02	12.75	0.7786
86	1949	8.93	57.56	13.57	0.6974
87	1983	8.42	61.34	13.21	0.6820
88	1907	7.64	65.22	12.68	0.6318
89	1955	4.42	66.35	11.39	0.3342

90	1926	7.57	63.27	13.20	0.6321
91	1980	4.58	62.44	12.67	0.3623
92	1925	4.48	59.73	11.79	0.3154
93	1901	3.89	59.39	13.59	0.3139
94	1975	7.31	58.31	13.77	0.5870
95	1924	7.34	53.41	14.47	0.5674
96	1971	4.52	58.00	13.47	0.3530
97	1984	4.36	57.65	14.59	0.3667
98	1914	3.02	62.18	11.90	0.2235
99	1917	4.07	56.82	13.75	0.3179
100	1919	6.17	59.03	13.67	0.4979

Name of Division : Neemuch-III

Challan No. : 37/282

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3618	4.57	66.20	13.52	0.4090
2	3606	4.59	56.80	15.21	0.3966
3	3603	8.61	54.30	13.92	0.6509
4	3617	4.67	65.07	14.22	0.4320
5	3610	9.1	44.55	16.86	0.6834
6	3615	7.33	55.19	17.12	0.6927
7	3601	7.8	57.51	13.88	0.6224
8	3605	3.86	56.33	14.01	0.3046
9	3602	8.73	57.63	13.55	0.6818
10	3609	4.75	61.51	13.95	0.4075
11	3608	4.57	57.78	14.04	0.3706
12	3616	8.24	57.23	14.92	0.7037
13	3604	7.18	56.97	14.38	0.5880
14	3613	8.88	61.88	13.82	0.7592
15	3607	4.52	64.06	13.24	0.3833
16	3614	4.4	65.68	14.48	0.4184
17	3611	4.53	53.44	14.90	0.3606
18	3612	4.22	60.97	15.22	0.3916

Date: 21.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 28/208**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2769	7.12	63.78	14.28	0.6486
2	2744	6.67	65.22	14.38	0.6256
3	2776	7.28	52.67	14.75	0.5657
4	2772	7.83	62.49	14.95	0.7313
5	2763	7.24	50.01	16.36	0.5922
6	2737	6.69	57.20	14.53	0.5559
7	2712	7.56	58.23	14.79	0.6509
8	2790	6.95	51.27	14.10	0.5025
9	2750	7.36	59.43	16.30	0.7132
10	2731	8.46	63.81	13.52	0.7301
11	2756	4.38	60.08	15.06	0.3964
12	2732	3.67	67.28	13.48	0.3329
13	2725	4.54	61.65	13.74	0.3845
14	2736	8.87	67.30	14.03	0.8373
15	2794	4.1	56.04	15.20	0.3493
16	2755	4.21	65.71	13.94	0.3856
17	2728	4.45	68.18	13.49	0.4094
18	2797	4.31	63.70	14.07	0.3862
19	2774	6.98	40.86	16.57	0.4725
20	2791	4.44	50.84	16.25	0.3667
21	2798	7.21	57.91	14.38	0.6006
22	2740	4.1	58.50	15.56	0.3731
23	2733	3.44	63.22	14.57	0.3168
24	2780	4.4	53.59	12.69	0.2992
25	2747	4.39	56.59	15.02	0.3731
26	2749	4.24	57.06	16.42	0.3973
27	2795	8.84	57.68	13.97	0.7125
28	2710	4.24	61.48	12.59	0.3282
29	2746	7.44	51.04	14.62	0.5550
30	2745	7.06	60.03	14.48	0.6135
31	2770	9.12	61.25	15.22	0.8500
32	2785	4.11	54.74	13.72	0.3087
33	2783	4.31	48.41	14.50	0.3026
34	2759	7.19	55.67	14.51	0.5810
35	2705	4.27	56.57	13.59	0.3284
36	2789	4.05	53.57	13.61	0.2952
37	2754	4.57	62.14	13.16	0.3738
38	2773	4.75	53.83	13.02	0.3330
39	2708	4.23	64.91	10.12	0.2779
40	2771	4.44	65.72	12.89	0.3761
41	2720	4.48	56.41	14.48	0.3660
42	2796	4.31	61.82	14.61	0.3892

43	2781	7.08	51.15	14.37	0.5204
44	2800	7.6	64.39	13.57	0.6642
45	2799	7.51	58.54	13.46	0.5918
46	2716	4.57	65.93	12.88	0.3880
47	2726	4.64	55.85	15.34	0.3976
48	2766	4.77	51.57	12.72	0.3129
49	2703	7.42	55.22	15.34	0.6285
50	2793	7.13	50.78	14.59	0.5283
51	2792	7.65	49.20	15.26	0.5745
52	2765	7.51	54.50	15.85	0.6489
53	2701	4.38	53.85	14.47	0.3412
54	2782	4.06	40.59	15.27	0.2517
55	2719	7.06	56.95	14.80	0.5952
56	2762	4.76	50.90	14.95	0.3622
57	2787	4.38	47.73	16.47	0.3443
58	2768	4.53	64.59	14.32	0.4190
59	2721	8.84	47.75	15.46	0.6524
60	2707	4.25	56.57	16.26	0.3910
61	2760	4.51	49.11	15.74	0.3486
62	2714	9.24	61.17	15.04	0.8501
63	2723	7.54	54.86	14.16	0.5859
64	2722	4.2	56.08	14.53	0.3423
65	2775	7.03	49.12	14.15	0.4886
66	2751	7.42	60.89	13.88	0.6270
67	2739	3.66	59.75	14.38	0.3144
68	2704	7.66	56.53	14.17	0.6136
69	2729	6.93	63.10	14.01	0.6126
70	2713	4.41	62.02	14.17	0.3876
71	2742	7.22	55.65	16.05	0.6447
72	2738	7.02	61.18	15.81	0.6788
73	2786	4.98	45.65	15.84	0.3601
74	2718	8.87	56.68	15.47	0.7779
75	2743	6.95	59.49	15.97	0.6603
76	2727	7.12	62.04	14.96	0.6607
77	2734	4.1	55.82	10.12	0.2317
78	2779	4.56	57.62	13.29	0.3493
79	2784	7.37	58.00	13.14	0.5616
80	2711	7.72	60.41	12.88	0.6006
81	2724	3.62	62.12	11.85	0.2664
82	2717	4.57	71.62	14.07	0.4607
83	2753	7.5	59.05	13.65	0.6045
84	2730	4.32	59.99	15.52	0.4022
85	2758	4.56	54.17	15.69	0.3876
86	2761	4.04	56.69	15.35	0.3515
87	2777	4.48	52.98	14.67	0.3481
88	2706	5.68	55.67	14.14	0.4470
89	2752	7.56	59.41	14.27	0.6411

90	2709	7.43	60.06	12.89	0.5751
91	2757	7.22	57.00	14.21	0.5848
92	2702	4.41	56.38	14.05	0.3493
93	2741	7.01	59.21	14.71	0.6106
94	2788	4.35	59.11	12.86	0.3306
95	2767	7.62	63.60	12.81	0.6210
96	2778	4.54	59.59	14.03	0.3795
97	2735	4.25	69.21	14.45	0.4250
98	2748	4.29	56.54	14.57	0.3535
99	2715	4.6	67.51	12.95	0.4020
100	2764	7.66	57.68	14.48	0.6396

Date: 18.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 01/05**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	19	8.15	58.21	13.45	0.6381
2	90	6.99	48.81	14.87	0.5075
3	49	8.2	46.58	15.69	0.5994
4	46	4.67	47.09	14.76	0.3246
5	84	7.17	51.69	14.32	0.5306
6	55	7.26	33.81	17.13	0.4204
7	74	7.33	47.75	15.43	0.5402
8	7	8.49	53.81	14.20	0.6486
9	66	7.89	56.77	14.67	0.6572
10	97	7.4	63.17	13.63	0.6371
11	86	8.55	50.43	14.10	0.6079
12	70	4.66	64.02	13.73	0.4096
13	38	7.13	47.62	13.73	0.4663
14	54	8.05	51.04	14.73	0.6054
15	51	9.03	56.06	14.95	0.7567
16	79	6.49	53.58	14.74	0.5127
17	72	4.69	57.54	13.63	0.3677
18	22	8.3	68.76	11.74	0.6698
19	16	8.59	54.51	13.34	0.6245
20	48	8.03	47.78	14.71	0.5645
21	89	9	50.42	14.16	0.6426
22	92	4.61	52.27	14.96	0.3605
23	39	8.82	50.35	14.70	0.6527
24	10	8.36	67.05	12.66	0.7098
25	99	4.14	56.00	13.96	0.3237
26	64	8.4	50.13	16.84	0.7090
27	40	8.14	51.23	15.77	0.6577
28	52	9.13	50.07	15.42	0.7048
29	94	6.89	49.21	14.55	0.4933
30	6	7.33	52.70	13.51	0.5219
31	98	8.66	58.23	14.85	0.7491
32	34	4.45	48.91	14.56	0.3168
33	73	3.83	56.88	16.28	0.3547
34	91	9.13	51.87	16.18	0.7660
35	29	7.87	59.26	14.61	0.6815
36	81	8.9	49.76	15.61	0.6915
37	58	8.9	56.23	14.25	0.7129
38	23	7.09	65.26	13.19	0.6104
39	25	8.47	63.15	12.84	0.6869
40	26	8.08	67.80	13.01	0.7127
41	14	3.6	57.30	13.77	0.2840
42	59	8.65	61.01	13.72	0.7240

43	96	8.62	57.79	15.37	0.7655
44	71	9.32	43.31	17.29	0.6981
45	15	3.33	60.88	14.49	0.2937
46	30	8.04	66.62	13.28	0.7115
47	44	8.39	54.22	14.70	0.6687
48	56	8.64	43.98	17.10	0.6497
49	45	7.75	40.67	15.71	0.4952
50	1	6.64	54.65	14.86	0.5392
51	75	8.73	58.44	14.68	0.7490
52	50	4.28	59.56	15.46	0.3942
53	24	8.43	59.03	14.20	0.7064
54	33	9	41.60	16.25	0.6084
55	78	6.51	53.95	15.01	0.5273
56	2	7.09	48.51	15.21	0.5232
57	42	8.83	53.09	15.86	0.7435
58	100	6.97	63.19	15.54	0.6845
59	8	7.05	53.44	15.25	0.5746
60	3	3.67	58.18	13.66	0.2918
61	93	7.15	51.70	16.25	0.6006
62	11	3.17	57.35	14.18	0.2577
63	76	8.33	50.00	16.16	0.6731
64	88	7.11	49.65	17.44	0.6157
65	61	9.28	47.89	17.73	0.7879
66	4	3.96	55.65	14.68	0.3235
67	69	7.82	58.21	14.26	0.6491
68	17	7.55	57.08	14.33	0.6176
69	21	6.99	66.79	12.79	0.5969
70	65	7.81	44.24	15.87	0.5483
71	47	8.71	49.56	15.31	0.6611
72	31	8.57	70.13	13.09	0.7867
73	28	8.23	65.22	12.77	0.6856
74	32	7.95	69.33	12.68	0.6988
75	9	7.27	59.95	13.79	0.6012
76	37	9.21	46.98	15.22	0.6585
77	60	8.8	44.89	15.91	0.6283
78	95	4.24	64.09	12.78	0.3473
79	80	4.71	51.06	16.12	0.3876
80	87	8.95	53.60	15.07	0.7232
81	13	8.15	63.06	11.75	0.6039
82	5	6.82	58.25	13.80	0.5483
83	18	7.01	58.35	14.09	0.5762
84	20	6.85	65.06	13.71	0.6110
85	62	8.73	46.24	17.11	0.6905
86	36	9.09	44.53	16.15	0.6536
87	35	4.44	43.22	15.46	0.2966
88	83	4.72	55.92	15.02	0.3965
89	12	8.21	62.50	13.14	0.6740

90	57	3.81	52.19	16.52	0.3284
91	41	4.89	43.37	16.14	0.3423
92	53	9.05	43.37	16.88	0.6625
93	68	9.36	48.18	15.44	0.6964
94	63	9.1	46.65	15.39	0.6534
95	82	8.79	56.79	14.91	0.7445
96	77	6.35	45.22	14.97	0.4299
97	27	3.4	63.83	13.21	0.2866
98	43	8.13	44.38	15.82	0.5707
99	67	7.58	57.98	13.97	0.6140
100	85	4.6	54.81	14.96	0.3772

Date: 13.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 08/19**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	790	6.69	62.03	12.54	0.5205
2	724	4.53	64.76	13.67	0.4009
3	752	7.76	65.22	12.77	0.6464
4	708	4.42	55.02	15.09	0.3669
5	716	4.42	62.85	12.79	0.3554
6	751	4.07	60.25	11.32	0.2776
7	762	8.76	61.71	12.80	0.6920
8	763	7.09	58.47	10.60	0.4396
9	776	7.2	55.25	12.34	0.4910
10	759	7.01	59.86	11.96	0.5019
11	715	4.32	66.41	11.34	0.3253
12	709	7.3	49.18	11.98	0.4300
13	793	4.46	64.66	10.53	0.3037
14	754	6.76	48.06	12.82	0.4164
15	738	4.44	64.58	10.90	0.3126
16	744	4.57	61.82	13.80	0.3898
17	734	4.53	56.85	15.43	0.3973
18	798	7.32	61.87	14.85	0.6727
19	733	4.71	59.67	12.90	0.3627
20	786	8.45	62.15	15.12	0.7943
21	782	4.45	56.51	14.53	0.3653
22	707	4.29	58.72	15.28	0.3848
23	702	8.97	58.14	15.39	0.8028
24	767	8.28	59.22	14.59	0.7154
25	766	8.49	62.57	14.61	0.7760
26	785	7.33	63.19	14.15	0.6553
27	789	4.51	66.49	13.79	0.4136
28	704	7.2	53.31	15.78	0.6055
29	757	3.95	59.43	15.82	0.3713
30	765	8.11	52.19	16.82	0.7121
31	712	7.18	47.45	16.69	0.5687
32	718	7.47	64.28	14.87	0.7141
33	781	4.22	57.40	14.70	0.3562
34	711	4.24	52.04	14.83	0.3273
35	729	4.51	60.50	13.54	0.3694
36	795	7.76	63.52	13.49	0.6650
37	770	8.2	56.55	12.50	0.5797
38	750	7.43	67.38	6.37	0.3187
39	773	7.1	54.01	12.59	0.4828
40	731	7.29	65.64	11.50	0.5504
41	761	8.42	58.13	12.37	0.6054
42	787	8.23	66.57	12.71	0.6963

43	784	8.57	60.34	11.65	0.6025
44	739	4.52	49.64	14.26	0.3200
45	775	8.41	63.75	11.48	0.6156
46	771	6.81	52.63	14.92	0.5346
47	760	8.45	58.60	14.44	0.7149
48	778	7.18	52.04	13.59	0.5076
49	796	7.2	67.51	11.42	0.5551
50	788	8.63	64.74	12.34	0.6895
51	714	4.1	49.70	13.82	0.2817
52	791	6.93	57.47	13.29	0.5295
53	710	4.55	53.20	14.36	0.3476
54	741	7.25	54.34	13.64	0.5372
55	764	8.51	58.14	15.91	0.7872
56	740	7.55	58.55	14.35	0.6342
57	742	4.47	60.90	13.92	0.3791
58	777	8.43	54.77	14.15	0.6533
59	780	8.25	55.75	14.31	0.6583
60	722	7.44	59.99	14.57	0.6503
61	794	8.14	64.06	12.21	0.6365
62	705	7.37	63.09	12.09	0.5623
63	726	8.83	63.51	12.90	0.7232
64	723	4.52	60.94	13.57	0.3738
65	743	4.44	53.81	14.35	0.3428
66	746	4.43	58.36	15.15	0.3916
67	756	8.73	58.53	14.39	0.7351
68	758	7.12	58.80	14.35	0.6009
69	732	4.54	59.70	14.46	0.3918
70	721	4.46	61.30	15.35	0.4197
71	727	4.4	52.73	14.30	0.3318
72	772	4.3	53.21	16.18	0.3702
73	730	4.35	64.40	13.18	0.3693
74	745	4.47	65.96	12.78	0.3768
75	753	7.09	47.30	16.19	0.5431
76	706	8.31	67.74	9.55	0.5377
77	792	7.33	58.83	13.58	0.5857
78	701	7.36	55.25	16.43	0.6683
79	779	4.4	48.46	16.49	0.3516
80	717	4.62	57.79	13.77	0.3678
81	769	4.21	63.20	12.72	0.3385
82	735	4.6	56.87	14.31	0.3744
83	768	4.31	54.08	15.74	0.3668
84	747	4.51	64.20	12.88	0.3730
85	755	7	51.34	14.49	0.5208
86	720	4.5	65.86	11.77	0.3488
87	774	4.43	56.22	13.20	0.3287
88	749	8.81	59.15	13.74	0.7163
89	800	8.36	63.87	13.06	0.6972

90	783	7.18	57.23	13.87	0.5701
91	719	7.5	55.67	13.02	0.5437
92	737	4.54	61.43	13.19	0.3677
93	703	7.24	54.71	14.46	0.5727
94	748	4.4	62.44	10.91	0.2996
95	736	4.46	61.48	11.09	0.3042
96	799	4.34	61.58	11.45	0.3060
97	797	8.57	64.87	13.16	0.7319
98	713	4.49	51.65	13.46	0.3121
99	725	9.34	58.24	13.63	0.7416
100	728	7.51	58.20	13.80	0.6031

Date: 30.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 14/88**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1344	7.48	58.13	13.71	0.5962
2	1371	7.52	53.53	14.50	0.5836
3	1395	4.51	61.42	12.28	0.3401
4	1377	8.88	60.52	13.32	0.7157
5	1387	8.98	60.32	12.98	0.7031
6	1358	7.5	65.62	12.72	0.6263
7	1356	7.34	58.38	15.04	0.6445
8	1390	9.1	62.74	13.01	0.7426
9	1307	7.62	56.57	13.01	0.5608
10	1331	4.38	56.76	15.06	0.3745
11	1315	7.7	57.53	13.92	0.6168
12	1400	4.46	56.19	13.12	0.3287
13	1396	4.36	56.87	13.43	0.3331
14	1389	8.33	66.50	13.04	0.7222
15	1399	7.5	64.50	10.54	0.5100
16	1378	7.38	58.45	13.84	0.5970
17	1306	7.23	57.12	13.43	0.5545
18	1369	8.84	59.41	14.59	0.7664
19	1309	7.94	59.22	14.45	0.6797
20	1373	7.4	51.02	13.90	0.5247
21	1308	7.38	56.24	12.98	0.5387
22	1321	7.41	52.20	14.16	0.5476
23	1334	8.7	57.57	14.49	0.7256
24	1343	7.35	56.02	14.66	0.6034
25	1368	7.26	59.11	12.54	0.5380
26	1361	8.59	62.16	13.50	0.7207
27	1367	8.67	48.09	14.72	0.6138
28	1370	8.66	59.54	12.11	0.6244
29	1328	4.51	58.65	14.85	0.3928
30	1346	7.42	57.21	14.07	0.5973
31	1332	8.84	56.48	14.71	0.7346
32	1380	3.93	60.58	13.57	0.3230
33	1319	4.33	56.66	16.24	0.3984
34	1304	7.27	53.62	14.86	0.5794
35	1312	9.57	57.13	14.23	0.7780
36	1311	7.03	61.78	15.15	0.6580
37	1385	4.16	60.99	14.81	0.3756
38	1345	7.67	59.59	14.82	0.6773
39	1305	7.82	53.38	16.26	0.6788
40	1388	4.1	64.47	14.55	0.3846
41	1362	7.27	66.08	14.51	0.6972
42	1301	7.72	52.57	17.18	0.6971

43	1339	7.66	59.07	14.56	0.6588
44	1375	6.97	61.09	14.13	0.6015
45	1327	7.48	55.97	16.47	0.6897
46	1392	4.29	57.13	8.56	0.2098
47	1347	7.04	58.33	14.86	0.6104
48	1372	8.23	52.28	15.95	0.6864
49	1324	4.65	59.19	15.12	0.4162
50	1341	4.71	57.71	14.92	0.4055
51	1383	8.42	61.64	13.30	0.6904
52	1314	4.45	64.57	16.51	0.4744
53	1381	4.15	61.30	15.60	0.3967
54	1353	9.06	52.43	15.09	0.7166
55	1365	8.89	49.90	15.79	0.7005
56	1366	4.18	44.42	16.19	0.3005
57	1382	3.67	64.32	15.27	0.3604
58	1323	4.56	61.03	14.99	0.4172
59	1386	7.78	59.00	14.53	0.6667
60	1350	4.33	62.45	14.24	0.3849
61	1397	4.45	62.84	14.77	0.4130
62	1303	9.24	60.61	13.43	0.7521
63	1374	8.89	53.00	15.30	0.7210
64	1349	9.5	53.57	14.92	0.7591
65	1342	8.99	57.56	14.47	0.7489
66	1384	8.53	56.20	10.04	0.4811
67	1357	4.54	60.82	14.85	0.4100
68	1329	4.54	62.22	13.60	0.3841
69	1348	7.62	53.18	12.97	0.5258
70	1338	4.52	53.11	12.43	0.2983
71	1310	4.71	64.33	10.88	0.3297
72	1340	4.16	61.39	13.65	0.3486
73	1316	7.53	60.66	14.90	0.6807
74	1363	7.44	48.33	13.78	0.4955
75	1326	4.77	55.38	15.29	0.4040
76	1364	6.23	55.78	13.27	0.4610
77	1379	4.25	50.13	14.22	0.3030
78	1333	7.64	53.83	14.47	0.5952
79	1393	4.2	54.62	14.23	0.3263
80	1317	7.29	56.42	14.07	0.5788
81	1302	7.73	57.11	12.40	0.5473
82	1325	4.23	55.21	16.10	0.3760
83	1335	4.43	53.77	13.93	0.3318
84	1391	4.25	49.20	14.00	0.2928
85	1354	4.36	55.90	15.42	0.3758
86	1394	6.93	62.34	14.82	0.6403
87	1355	7.44	51.88	16.69	0.6443
88	1320	4.52	58.44	15.43	0.4077
89	1313	7.74	66.49	14.66	0.7546

90	1352	7.19	59.50	14.89	0.6370
91	1398	4.69	52.96	13.86	0.3442
92	1359	4.42	67.05	14.88	0.4411
93	1322	8.24	53.79	15.93	0.7062
94	1351	4.75	57.25	15.62	0.4247
95	1330	4.75	53.93	15.91	0.4076
96	1336	4.73	62.46	14.33	0.4233
97	1360	7.48	67.49	14.36	0.7248
98	1376	8.89	50.78	15.71	0.7094
99	1337	4.45	59.27	14.80	0.3903
100	1318	4.51	55.65	14.86	0.3730

Date: 29.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-III****Challan No. : 24/158**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2387	7.58	55.35	14.67	0.6155
2	2310	7.14	53.22	13.28	0.5048
3	2346	7.3	45.62	16.07	0.5351
4	2358	7.56	68.86	14.33	0.7462
5	2363	7.29	53.47	14.91	0.5810
6	2398	8.94	54.58	13.67	0.6669
7	2390	6.87	58.85	13.37	0.5407
8	2304	4.28	61.86	13.82	0.3659
9	2394	7.68	55.72	12.35	0.5284
10	2399	9.6	61.33	14.45	0.8506
11	2388	9.19	56.01	12.30	0.6332
12	2374	7.45	55.23	15.95	0.6563
13	2379	6.99	61.73	13.93	0.6011
14	2378	7.48	55.50	14.83	0.6156
15	2389	7.74	60.79	13.36	0.6285
16	2330	7.45	57.44	14.82	0.6340
17	2348	7.55	57.03	13.96	0.6010
18	2377	7.65	60.45	14.18	0.6556
19	2367	8.29	59.43	12.96	0.6383
20	2380	7.43	62.14	13.87	0.6405
21	2305	7.52	61.83	12.57	0.5843
22	2361	7.49	61.57	14.15	0.6524
23	2306	7.69	63.08	12.27	0.5952
24	2359	6.74	57.85	13.62	0.5311
25	2400	8.73	60.15	11.69	0.6137
26	2376	7.28	59.85	13.78	0.6006
27	2322	7.34	59.98	14.09	0.6202
28	2303	4.37	64.15	14.28	0.4003
29	2337	7.48	67.91	11.99	0.6089
30	2383	4.78	58.40	14.50	0.4049
31	2365	7.32	58.65	14.61	0.6273
32	2311	4.35	43.70	15.54	0.2954
33	2316	4.61	61.20	13.68	0.3859
34	2319	7.47	58.15	15.12	0.6566
35	2323	7.32	51.50	14.64	0.5519
36	2368	4.31	54.06	15.50	0.3612
37	2347	4.49	50.87	16.22	0.3704
38	2364	7.09	53.63	13.59	0.5169
39	2395	7.72	62.22	13.05	0.6269
40	2326	4.29	58.51	14.20	0.3565
41	2357	8.76	57.64	13.98	0.7061
42	2373	7.52	60.78	13.10	0.5986

43	2320	8.67	56.37	14.85	0.7257
44	2328	7.45	55.25	14.26	0.5871
45	2324	7.7	54.58	13.74	0.5775
46	2391	7.54	58.39	13.55	0.5964
47	2332	4.59	53.67	14.09	0.3470
48	2344	4.21	50.41	15.49	0.3288
49	2317	4.47	55.24	13.72	0.3388
50	2384	7.69	49.02	16.32	0.6152
51	2327	4.57	61.25	16.57	0.4639
52	2343	7.67	47.26	16.08	0.5829
53	2336	7.56	55.92	14.43	0.6101
54	2339	8.86	60.17	14.87	0.7930
55	2314	4.51	52.17	16.14	0.3797
56	2329	4.18	51.91	15.60	0.3386
57	2382	8.77	42.72	16.60	0.6218
58	2386	8	46.59	19.25	0.7176
59	2385	7.8	50.68	18.33	0.7246
60	2313	4.42	44.23	18.52	0.3620
61	2333	7.24	63.16	14.61	0.6683
62	2354	7.39	57.05	15.92	0.6710
63	2360	7.37	49.45	17.27	0.6294
64	2375	4.28	46.64	15.12	0.3017
65	2353	6.51	50.92	15.67	0.5195
66	2350	7.22	55.83	14.71	0.5928
67	2362	7.47	52.31	16.29	0.6364
68	2396	7.86	52.43	15.35	0.6327
69	2325	8.8	53.46	15.73	0.7401
70	2355	7.53	52.79	15.36	0.6107
71	2301	7.03	59.84	14.09	0.5926
72	2341	4.5	47.04	16.75	0.3546
73	2302	7.32	58.42	13.80	0.5900
74	2318	7.54	51.68	14.73	0.5738
75	2349	7.49	57.14	13.95	0.5970
76	2335	7.52	57.21	15.94	0.6858
77	2397	7.86	65.48	14.28	0.7349
78	2315	7.03	45.63	17.05	0.5469
79	2345	4.3	49.08	16.71	0.3526
80	2393	9.4	59.29	13.71	0.7642
81	2372	9.3	56.40	16.08	0.8435
82	2356	7.61	50.61	16.14	0.6217
83	2338	7.61	59.31	14.70	0.6636
84	2321	8.52	55.33	15.07	0.7106
85	2334	4.7	50.95	14.25	0.3412
86	2381	8.06	50.51	15.70	0.6392
87	2366	7.58	49.21	15.50	0.5784
88	2369	7.48	52.45	16.91	0.6635
89	2352	7.46	60.96	14.60	0.6639

90	2392	7.69	59.27	15.12	0.6890
91	2312	4.24	57.30	15.01	0.3646
92	2371	7.39	57.17	14.03	0.5927
93	2307	4.58	67.21	12.02	0.3701
94	2351	7.54	53.63	14.38	0.5813
95	2370	4.59	57.60	14.34	0.3791
96	2340	9.01	62.94	13.76	0.7803
97	2309	4.18	55.56	15.26	0.3545
98	2331	7.27	55.96	14.21	0.5780
99	2342	7.67	49.20	16.54	0.6243
100	2308	7.21	68.30	12.99	0.6395

Date: 27.06.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।